


उजड़ा घर

मूल लेखक—

स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर



अनुवादक—

श्री कमलाप्रसाद राय शर्मा, बी. ए

— ० —

प्रकाशक—

श्री धर्म पुस्तकालय



पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेता

धनाराम

परिपोषित

संस्करण

मूल्य

१॥

प्रकारिका
चौधरी एण्ड सन्स
बनारस सिटी ।

हमारा नवीन प्रकाशन

मजिल	४) पागल	२॥)
सविता	५) कुकुम	२॥)
लवंग	३॥) इशारा	२॥)
निर्मोही	३॥) जलन	२॥)
आहुति	३॥) मनोरमा	२)
भँवरा	३) रोटी	२)
अंधकार	३) वासन्ती	२)
जबानी का नशा	२) भासी की रानी	३)
नर और नारी	३) वीर दुर्गादाम राठौर	३॥)
बसेरा	२॥) छत्रपति शिवाजी	१॥)
अकेला	२॥) बधन	१)
मन की पीर	१॥) साहसी राजपूत	१॥)
होटल में खून	१॥) हाहाकार	२)
प्यासी तलवार	२) प्यासी आर्य	१)
घर की लाज	३॥) अब्राहन लिंकन	१)

दो शब्द

हिन्दी के पाठक 'गोरा', 'आँख की किरकिरी' आदि रवि
प्रसू की पुस्तकों का रसास्वादन कर चुके होंगे, परन्तु इस
छोटीसी पुस्तक का अतक हिन्दी अनुवाद कहीं से प्रकाशित
नहीं हुआ था। इस पुस्तक की उपयोगिता क्या है और
महाकवि ने इसे लिखकर समाज का क्या उपकार किया है,
इसका निर्णय पाठक स्वयं करें। इस प्रसंग में लेखक की
स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करता हुआ पाठकों
से केवल मेरा यही निवेदन है कि भूपति और चारुलता के
चरित्र से शिक्षा लाभ करें। भूपति ने नवविवाहिता पत्नी
के प्रति उसके यौवनोन्मेष के समय से ही उदासीनता दिख-
लाकर जो भयकर गलती की थी, उसके कारण उसका
दाम्पत्यजीवन नीरस दुःखद और दयनीय हो गया। दूसरी
ओर चारुलता ने भी निरन्तर पर पुरुष का धिन्तन करके
जो भयकर अपराध किया, उसके फलस्वरूप आजीवन भार
बहन करना पड़ा। पति को सर्वस्व मानकर अन्य सम्ब-
न्धियों के साथ यथोचित व्यवहार करना ही हिन्दू कुलवधू
के जीवन का आदर्श होना चाहिये, परन्तु चारुलता ने अपने
धर्म का पालन इस आदर्श के अनुकूल नहीं किया।
नवपुत्र पाठक यदि इन चरित्रों की शुद्धियों से माध्यान

होकर कर्तव्य मार्ग से विचलित न हो और दाम्पत्य-जीवन के कर्तव्य का ठीक तरीके से पालन करते हुए जीविका निर्वाह करें, तो मैं अपना श्रम सफल समझूँगा। साथ ही इस पुस्तक में जहाँ कहीं कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो उसके लिए भी मैं पाठकों से और स्वर्गीय महान् आत्मा से क्षमा-प्रार्थी हूँ।

२०—८—१९४२

{ कमलाप्रसाद राय शर्मा,
राजघाट, काशी।



उजड़ा घर

जोर रहता है। विशेषतः भूपति को उन्नत बना देने की कोशिश करने वाले लोगों की कमी भी नहीं थी।

इस तरह अखबार में उलफ़र वह अपने-आप विभोर हो रहा था कि धीरे धीरे उसकी बालिका वधू चारुलता ने धीरे धीरे यौवनावस्था में पदार्पण किया। परन्तु समाचार पत्र के सम्पादक जी को इस खबर का कुछ पता नहीं चला। 'भारत की सीमान्त नीति क्रमशः वृद्धि पाकर किस तरह संयम के बन्धन को तोड़ती जा रही है' यही उसके प्रधान लक्ष्य का विषय था। धनवान गृह की गृहिणी होने के कारण चारुलता को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। फल परिणामहीन फूल की भोंति, परिपूर्ण अनावश्यकता के बीच परिष्कृत हो उठना ही उसके चेष्टाशून्य आठो पहर का एकमात्र काम था। उसको किसी तरह की कमी नहीं थी।

ऐसी अवस्था में संसार में प्रायः देखा जाता है कि बहुतेरे मौका पाकर पति को लेकर बहुत ऊधम मचाने लगी हैं, दाम्पत्य लीला की 'सीमान्त नीति, संसार की सारी सीमा तो पार करके, समय से असमय और विहित से अविहित में जा पहुँचती है। चारुलता को वह सुअवसर नहीं मिला था। अखबार के आवरण को भेदकर पतिपर अधिकार प्राप्त करना उसके लिए असाध्य हो गया था।

उजड़ा घर

युवती स्त्री के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए एक दिन जब किसी आत्मीय ने भूपति की भर्त्सना की तो भूपति ने प्रकृष्ट होश-में आकर कहा—तुमने ठीक ही कहा, चारु को एक संगिनी अवश्य चाहिए, उस बेचारी को कुछ भी काम नहीं; अकेली उदास होकर समय बिता रही है।

उसने अपने साले उमापति से कहा—तुम अपनी स्त्री को, यहाँ हमारे ही मकान पर क्यों नहीं लाते, एक उम्र की एक भी सहेली पास न रहने से चारु को खलता रहता है।

सम्पादकजी ने यही समझ लिया कि किसी सहेली का अभाव ही चारु के लिए चिन्ता का विषय है। अतः अपने साले की पत्नी मन्दाकिनी को घर लाकर पत्नी की चिन्ता दूर करने का निश्चय कर लिया।

जिस काल में पति पत्नी प्रेमोन्मत्त के प्रथम अरुणलोक में एक दूसरे के लिए, अपरूप महिमा से चिरन्वीन की भाँति प्रतिभात होते हैं, वही स्वर्ण प्रभामण्डित प्रभातकाल अचेतनावस्था में कब कैसे बीत गया, कोई भी न जान सका। नवीनता का स्वाद पाये बिना ही दोनों एक दूसरे के लिए पुराने परिचित की तरह मालूम होने लगे।

लियने पढ़ने की ओर चारुलता का स्वाभाविक मुकाबला था, इस कारण उसके दिन एकदम भारस्वरूप नहीं हुए। अपनी

श्री चेष्टा से उसने पढ़ने के, 'तरह तरह के' उपायों का बन्दोबस्त कर लिया था। भूपति का फुफेरा भाई अमल थर्डेइयर में पढ़ता था, चारुलता उसी को बुलाकर पढ़ लिया करती थी और इस कार्य की पूर्ति के लिए अमल की अनेक मांगों उसे सहन करनी पड़ती थीं। उसके लिये होटल में भोजन करने का खर्च और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकें खरीदने का खर्च उसे जुटाना पड़ता। अमल बीच बीच में अपने मित्रों को निमन्त्रण देकर खिलाता और उस यक्ष सिद्धि का भार गुरुदक्षिणास्वरूप चारुलता स्वयं ग्रहण करती। भूपति चारुलता के सम्मुख कोई भी माग नहीं रखता, परन्तु, मामूली तौर से थोड़ा पढ़ाकर फुफेरे भाई अमल की मांगों का अन्त नहीं था। इस बात को लेकर चारुलता प्रायः बीच बीच में बनावटी क्रोध और विद्रोह प्रकट करती। किन्तु किसी आदमी के कुछ काम में आना और स्नेह का उपद्रव सहना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था।

एक दिन अमल ने कहा—भाभी, हम लोगों के कालेज के राजवश का विद्यार्थी, राज-अन्तपुर के खास हाथ के बुने हुए कार्पेट के जूते पहिन कर आता है यह मेरे लिए सख्त नहीं है—एक जोड़ा कार्पेट का जूता चाहिए, नहीं तो अब किसी तरह पद-मर्यादा की रक्षा न कर सकूँगा।

चारु—हाँ, ठीक है। तुम चाहते हो कि मैं बैठकर

उजड़ा घर

तुम्हारा जूता सीसीकर मरूँ ? यह नहीं होगा, दाम देती हूँ, जाओ बाजार से खरीद लो।

अमल ने कहा—ऐसा नहीं हो सकता।

चारू जूता-सिलाई का काम नहीं जानती और अमल के सामने उस बात को अस्वीकार भी नहीं करना चाहती। अमल जो चाहता है उसकी पूति होनी चाहिए। ससार में वही तो एकमात्र प्रार्थी है। उस एकमात्र प्रार्थी की प्रार्थना मजूर किये बिना वह नहीं रह सकती। अमल जिस समय कालेज चला जाता, उस समय वह छिपकर बड़े यत्न से कार्पेट की सिलाई सीखने लगी। कुछ दिनों के बाद अमल स्वयं जब अपने जूते का प्रसंग एकदम भूल गया, ऐसे ही समय में एक दिन शाम को चारू ने उसे भोजन के लिए निमन्त्रण दिया।

गर्मी का दिन है। छत पर ही अमल के लिए भोजन का आसन रक्खा गया है। धूल उड़कर थाली में न गिरे, इस आशका से पीतल के ढक्कन से थाली ढक दी गई है। कालेज की पोशाक खोलकर हाथ मुँह धोकर साफ सुथरा हो अमल उपस्थित हो गया।

अमल ने आसन पर बैठकर ढक्कन खोलकर देखा—थाली में नया तैयार किया हुआ रेशम का एक जोड़ा जूता रक्खा हुआ है। चारूलता ठठाकर हँसने लगी।

उजड़ा घर

जूता पाकर अमल की आशा और बढ चली। समने कहा—अब गलाबन्ध, रेशम की रुमाल, फूनदार कसीदे से तैयार मिलना चाहिए। बैठकराने में बैठने के लिए जो आराम-कुर्सी है उसपर, लगे हुए तेल का दाग छिपाने के लिए, पर नक्काशी खींचा हुआ गिलाफ भी जरूर आ जाना चाहिए।

प्रतिवार ही चारुलता आपत्ति प्रकट करके झगडा करती और प्रत्येक बार बड़े यत्न और बहुत ही स्नेह के साथ शौकीन अमल का शौक पूरा कर देती। अमल कभी कभी पूछता, भाभी, कहीं तक हुआ।

चारुलता फुसफुस कहती, कुछ भी नहीं हुआ। कभी कहती, यह बात मुझे बिलकुल याद न थी। किन्तु अमल छोड देने वाला लड़का नहीं। प्रति दिन याद दिलाना और तकादा करता। अमल के इन उपद्रवों को और भी उत्तेजित करने के लिए ही चारु उदासोन्ता दिखलाकर विरोध प्रकट करती और अचानक एक दिन उसकी प्रार्थना पूरी करके तमाशा देखने लगती।

धनधान गृहस्थ के घर में चारु को और किसी के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल अमल ही उसको काम कराये बिना नहीं छोडता। उसके इन्हीं सब छोटे छोटे शौक के कामों में ही उनकी स्त्री सुलभ आकांक्षायें पूर्ण होकर शान्ति का

अनुभव करती थी।

भूपति के अन्तःपुर में जो एक खण्ड जमीन पड़ी हुई थी, उसे यदि बगीचा कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। उस बगीचे की प्रधान धन सम्पत्ति अमड़े के एक ही विलायती पेड़ में निहित थी।

दोनों ने मिलकर कुछ दिनों से नक्शा खींचकर एक प्लान बनाया था और महा उत्साह से इस जमीन पर एक बगीचे की कल्पना भी निश्चित कर ली थी। अत एक दिन इस भूखण्ड की उन्नति के लिए चारु और अमल की फमेटी बैठी।

अमल ने कहा, भाभी, हम लोगों के इस बगीचे में उस जमाने की राजकन्या की भोंति तुम्हें अपने ही हाथों से जल खींचना पड़ेगा।

चारु ने कहा—पश्चिम तरफ के कोने में एक झोपड़ी तैयार करनी होगी, एक हिरन का बच्चा भी रखा जायगा।

अमल ने कहा—एक छोटी सी मील भी बनाने की जरूरत है, उसमें घत्तक रखे जायेंगे।

चारु ने इस प्रस्ताव से उत्साहित होकर कहा—और उसमें नीला कमल होगा, बहुत दिनों से नीले कमल देखने को मेरी साध लगी हुई है।

उजड़ा घर

अमलने कहा—उस भील के ऊपर एक छोटासा पुल बना देंगे और घाट पर एक सुन्दर छोटी डोंगी रहेगी।

चारु ने कहा—परन्तु घाट अवश्य ही सफेद सगमरमर पत्थर का बनाया जायगा।

अमल ने कागज पेन्सिल लेकर लकीर खींची और कम्पास पकड़कर बड़े ही आदम्वर से बगीचे का एक नक्शा खींच लिया।

दोनों ने मिलकर अपनी परिकल्पना में सशोधन परिवर्तन करते करते २०-२५ नये नक्शे तैयार कर लिये।

नक्शे के अनुसार कार्रवाई होने पर कुन खर्च कितना पड़ेगा, उसका एक एस्टिमेट बनाया जाने लगा। यह विचार किया गया था कि चारु अपने मासिक खर्च की रकम से थोड़ा थोड़ा धरा लगाकर धीरे धीरे बगीचा तैयार कर लेगी। घर पर कहीं कौन काम कर रहा है, इसकी कोई भी खबर भूपति को नहीं रहती थी। बगीचा तैयार हो जाने पर, हठात् एक दिन उसे वहाँ निमन्त्रण में बुलाकर आश्चर्य में डाल दिया जायगा। उस समय वह देखकर यह समझेगा कि अलादीन के प्रदीप की सहायता से जापान से एक समूचा बगीचा उठाकर लाया गया है।

किन्तु एस्टिमेट बहुत कम रखे जाने पर भी चारु उसका खर्च संभालने में असमर्थ थी। इस हालत में अमल फिर दूसरा

उजड़ा घर

भक्शा तैयार करने लगा। उसने कहा—तो अब भाभी, उस भील का विचार छोड़ दिया जाय।

चारू ने कहा, नहीं नहीं, भील का विचार छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें मेरा नील कमल रहेगा।

अमल ने कहा, तुन अपने हिरन के घर में खपड़े का छप्पर न लगाओगी तो क्या हर्ज होगा। उसमें साधारण सादा छप्पर लगाने से भी तो काम चल जायगा।

चारू ने अस्यन्त क्रोधित होकर कहा—तब तो उस घर की मुझे कोई जरूरत नहीं—उसे रहने दो।

मारिशस से लॉग, कर्नाटक से चन्दन और सीलों से धालचीनी का पौवा मँगाने का प्रस्ताव रखा गया था। अमल ने उन सबके बदले में मानिकतल्ला से साधारण देशी और विलायती पेडों का नाम लिया। यह सुनते ही चारू ने मुँह फुलाकर कहा तब तो मुझे अब वगीचे की जरूरत नहीं है।

एस्टिमेट घटाने का यह तरीका चारू को अरुचिकर मायूम पड़ा। एस्टिमेट के साथ साथ अपने विचारों को छोटा करना चारू के लिये एक असाध्य विषय है और अमल के मुँह से जो कुछ भी क्यों न निकले, उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेना भी उसके लिये कठिन है।

अमल ने कहा—तब तो भाभी, यही अच्छा होगा कि

उलड़ा घर

तुम भैया के सामने बगीचे का प्रस्ताव रखो। वे अवश्य ही
 5पया देंगे।

चारू ने कहा—नहीं, उनसे कहने से क्या मजा रह जायगा ?
 इस दोनों मिलकर बगीचा तैयार कर लेंगे। वे तो हुक्म चलाकर
 ईडेन गार्डन तैयार करा सकते हैं—ऐसा होने पर हमारे प्लान
 का क्या होगा ?

अमडा वृक्ष की छाया में बैठकर चारू और अमल
 असाध्य सकल्प की कल्पना कर रहे थे। चारू की भाभी ने
 दो तल्ले से पुकार कर कहा, इतनी देर तक तुमलोग बगीचे में
 क्या कर रहे हो ?

मुखाकृति पर मन्द मुमकान बिखेरती हुई चारू ने कहा—
 हमलोग पके अमड़े की रोज में हैं।

पके अमड़े की स्वाद को यादकर मन्दाकिनी के मुँह में पानी
 छतर आया। उसने ललचाते हुए स्वर में कहा—यदि मिल जाय
 तो मेरे लिये भी लेते आना।

चारू हँसने लगी, अमल भी हँस पड़ा। उनकी सभी
 इच्छाओं का प्रधान सुख और गौरव यही था कि वे सब अपने-
 आप ही आवद्ध थे। मन्दा में और गुण क्यों न हों परन्तु
 उसमें सोचने की योग्यता नहीं थी, वह इन सब प्रस्तावों का
 रसास्वादन कैसे कर सकती है, वह तो इन दो सभ्यों की कमेटी

से एकदम बहिष्कृत है।

असाध्य बगीचे के एस्टीमेट में भी कोई कमी नहीं हुई, कल्पना भी कभी हार मानने को तैयार नहीं हुई। इसलिए अमड़ा पेड़ के नीचे की कमेटी लगातार कुछ दिनों तक इसी तरह चलती रही। बगीचे में जिस स्थान पर मील बनेगी, जहाँ पत्थर की वेदी बनेगी, उन स्थानों पर अमल ने लकीरें खींच डालीं।

उनके इच्छित बगीचे में अमड़े के चारों तरफ किस तरह वेदी बनायी जायगी, अमल एक छोटी सी कुदाली लेकर उसकी सरहद पर लकीर खींच रहा था—ऐसे ही समय में चारू ने पेड़ की छाया में बैठकर कहा, अमल, यदि तुम लिख सकते तो बड़ी अच्छी बात होती।

अमल ने कहा, क्यों अच्छी बात होती ?

चारू—उस हालत में अपने बगीचे का वर्णन तुमसे एक कहानी के रूप में लिखवा लेती। यह मील, यह हिरन का घर, यह अमड़े का पेड़ आदि सबका जिक्र उसमें रहता। हम दोनों के सिवा और कोई समझ नहीं पाता, बड़े ही मजे की बात होती। अमल—तुम एक बार लिखने की कोशिश करके देखो न; अवश्य ही तुम लिख सकोगे।

अमल ने कहा—अच्छा यदि लिख सकूँ तो मुझे क्या

दोगी ? चारु ने पूछा, तुम क्या लेना चाहते हो ?

अमल ने संसाहित होकर कहा—अपनी मशहरी में मैं लता पुष्पादि का नक्शा बना दूँगा, उसपर तुम शुरू से खायिर तक रेशम से कसीदा काढ़ देना ।

चारु ने कहा—तुम्हारे सभी काम विचित्रता से भरे होते हैं, मशहरी में भी क्या कसीदा बनाया जाता है ?

मशहरी जैसी जरूरी चीज को एक शोभाहीन जेलखाने की भाँति रखने के विरुद्ध कमल ने अनेक बातें कहीं । उसने कहा कि दुनियाँ में पन्द्रह आने आदमियों में सौन्दर्य ज्ञान नहीं रहता और कुरूपता उन्हें कुछ भी कष्टकर नहीं मालूम होती, यही उसका प्रमाण है ।

चारु ने उसी समय उस बात की मान लिया । हम दोनों की यह एकान्त कमेटी इस पन्द्रह आने के अन्तर्गत नहीं है, यह समझकर वह मन ही मन बड़ी खुशी हुई ।

उसने अन्त में कहा, अच्छी बात है, मैं मशहरी तैयार कर दूँगी, तुम लिखना आरम्भ कर दो ।

अमल ने रहस्य का भाव प्रकट करते हुए कहा—क्या तुम समझती हो कि मैं लिख न सकूँगा ?

चारु ने अत्यन्त उत्तेजित होकर कहा—वबतों तुमने जरूर ही कुछ लिख रखा है, मुझे दिखाओ ।

अमल—“आज रहने दो भाभी ।

“चारू—नहीं, आज दिखलाना पड़ेगा, मेरे सिर की सौगन्ध,
आओ लेकर आओ ।

चारू को अपनी लिखी चीज सुनाने की व्यग्रता बहुत दिनों
से जोर-मार रही थी, परन्तु एक व्यवधान जो बीच में
आ खड़ा हुआ था, वह यह था कि, कहीं उसका लेख उसे
नीरस-और अरुचिकर नालगे । और इस संकोच को
मन से निकाल फेंकने का साहस भी उसे नहीं हो रहा था
अकस्मात् आग उसके पीछे पड़ जाने के कारण, उसका
संकोच और व्यवधान छिन्न भिन्न हो गया । वह लेख
आया । कुछ खांसकर उसे सुनाना शुरू किया । चारू पेड़
सहारा लें, घास पर पैर फैलाकर सुनने लगी ।

निबन्ध का विषय था—“मेरा खाता !” अमल ने
था—हे मेरे सफेद खाता, मेरी कल्पना ने अब तक
“स्पर्श” नहीं किया था । सूतिका-गृह में भाग्य-पुरुष के
के पहले, बच्चे के ललाट की भौंति तुम निर्मल, रहस्यमय ही
जिस दिन तुम्हारे अन्तिम पृष्ठ की अन्तिम पक्ति न।

लिख दूँगा, वह दिन आज कहीं है ! तुम्हारे ये सफेद
मे पन्ने चिरकाल के लिए स्याही से विन्धित रूप में, सम
की बात स्वप्न में भी नहीं सोच रहे हैं .

घातें लिखी थीं।

चारु पेड़ की छाया में बैठकर स्तब्ध होकर सुनने लगी। पढ़ना खतम होने के बाद, थोड़ी देर तक चुप रहकर उसने कहा—तुम फिर नहीं लिख सकते।

उस दिन उस पेड़ के नीचे अमल ने साहित्य का मादक रस पहले पहल पान किया,—साकी थी नवीना, रसना भी थी नवीन और अपरान्ह का प्रकाश लम्बी छाया के आगमन से रहस्यपूर्ण हो चला था।

चारु ने कहा—अमल कुछ अमड़ा ताड़कर ले, चलना चाहिए, नहीं तो मन्दा को क्या हिसाब दिया जायगा ?

मूढ़ मन्दा को, अपनी पढाई लिखाई और आलोचना की घातें बतलाने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, इसलिए अमड़ा सोड़कर ले जाना होगा।

२

-बगीचे- का इरादा उनके अन्य बहुत-से कल्पित कामों की-भौति, सीमाहीन कल्पना-क्षेत्र के बीच कब गायब हो गया, वह अमल और चारु किसी को भी मालूम न हो सका।

अध अमल का लिखना ही उनकी आलोचना और
का प्रधान विषय हो उठा। अमल आकर कहता—भाभी एक
बहुत ही सुन्दर भाव दिमाग में आ गया है।

चारू उत्साहित हो जाती, कहती—'बली' अपने दक्षिण
तरफ के बरामदे में—यहाँ तो 'इसी समय' मन्दा पान लगाने
के लिये आ पहुँचेगी।

चारू काश्मीरी बरामदे में एक पुरानी बेंत की चटाई पर
बैठ जाती और अमल रेलिंग के नीचे के ऊँचे हिस्से पर बैठकर
पीर फैला देता।

अमल के लिखने के विषय प्रायः ही निश्चित नहीं
रहते—

यह साफ तौर से बतलाना कठिन है। गडबड़ी के साथ
वह जो कुछ कहता उसे अच्छी तरह समझना किसी की भी
शक्ति में नहीं है। अमल स्वयं ही बीच बीच में बोल
भाभी, तुमको अच्छी तरह न समझा सका।

चारू कहती—'नहीं, मैं बहुत कुछ समझ गयी, तुम
लिख डालो, देर मत करो।

कुछ तो मन ही मन समझकर, कुछ न समझकर,
कुछ कल्पना में लाकर, बहुत अशों में अमल के व्यक्त कर
के जोश से उत्तेजित होकर मन में एक तरह का जो

वह खींच लेती, वसी में वह सुख पाती और आग्रह से अधीर हो उठती।

वसी दिन तीसरे पहर को चारु पूछ बैठती, कितना लिख चुके ?

अमल कहता, इतने समय के अन्दर ही क्या लिखा जा सकता है ?

दूसरे दिन सबेरे कुछ भगड़ा लु स्वर में चारु पूछती—क्यों, तुमने अभी इसे लिख नहीं डाला ?

अमल जवाब देता—बैठो, और थोड़ा सोच लूँ। चारु रज होकर बोलती—तब जाओ !

तीसरे पहर को जब वह क्रोध और बढ़ जाता और चारु बोलना बन्द करने का रुख दिखलाती, तब अमल पाकेट से रुमाल निकालने के बहाने लिखे हुए कागज का एक हिस्सा निकाल लेता।

क्षणभर में चारु का मौनारलम्बन टूट जाता और वह बोल उठती—तुमने ता लिख रखा है, मुझे घोरा देते हो। दिखाओ।

अमल कहता—अभी लिखना खतम नहीं हुआ है और कुछ लिखकर सुनाऊँगा !

चारु—नहीं, अभी सुनाना पड़ेगा ?

उजड़ा घर

अमल इसी समय सुनाने के लिये तैयार है, किन्तु चारु को कुछ समय तक तंग किये बिना वह नहीं सुनाता। इसके बाद अमल कागज हाथ में लेकर बैठ जाता और शुरू में पन्ने को कुछ ठीक कर लेता, पेन्सिल लेकर दो एक स्थान में कुछ सशोधन करने लगता, तब तक चारु की ओरें जग के भार से झुके हुए बादल को भाँति पुलकित-कौतूहल से उस कागज की ओर झुकी रहतीं।

जब अमल दो चार पैराग्राफ लिख डालता तब वह जितना भी क्यों न हो, चारु को पढ़कर सुना देना पड़ता और बाकी हिस्सा आलोचना और कल्पना के बीच मथित होता रहता।

इतने दिनों तक दोनों आकाश-कुसुम चुनने में लिप्त थे, अब काव्यकुसुम का कर्षण आरम्भ होने से, दोनों और सभी बातें भूल गये।

एक दिन तीसरे पहर को जब अमल कॉलेज से लौटा तो उसकी जेब कुछ अधिक भरी हुई-सी मालूम हुई। अमल ने जब मकान के अन्दर प्रवेश किया तो चारु ने अन्त पुर की खिड़की से उसकी जेब की पूर्णता की तरफ गौर से देखा लिया था।

और दिन बराबर कॉलेज से लौटते ही अमल मकान

उड़ड़ा धर

के अन्दर जाने में देर नहीं करता था, परन्तु आज वह अपनी भरी हुई जेब के साथ बाहर चाले बैठकखाने में चला गया। शीघ्र भीतर आने का उसने नाम नहीं लिया।

चारु ने अन्तपुर के सरहद पर आकर अनेक धारतालियाँ बजाई, पर किसी ने भी नहीं सुना। चारु कुछ रंज होकर अपने बरामदे में मन्मथ दत्त की एक पुस्तक पढ़ने की कोशिश करने लगी।

मन्मथ दत्त नया लेखक है। उसके लिखने का तरीका बहुत अंशों में अमल से मिलता जुलता है, इस कारण अमल कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। कभी कभी उसकी लिखी चीज को व्यंग के साथ पढ़कर परिहास करता और चारु अमल के हाथ से उस पुस्तक को छीनकर लापरवाही के साथ कुछ दूरी पर फेंक देती।

आज जब अमल के पैर की आहट सुनाई पड़ी तब उसने मन्मथदत्त की पुस्तक को अपनी आँखा के सामने रखकर एकप्रभाव से पढ़ना शुरू किया।

अमल बरामदे में आ पहुँचा, चारु ने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया मानो कुछ देखा ही नहीं। अमल ने पूछा, "भाभी, क्या पढ़ रही हो?"

चारु को निरुत्तर देख अमल ने चौकी के पीछे जाकर

तेईस।

उजड़ा घर

पुस्तक को देख लिया। कहा—मन्मथदत्त बेबकूफ है।

चारु ने कहा, आः! तर्क मत करो, मुझे पढ़ने दो। पीठ के पास खड़ा होकर अमल व्यंग्य भरे स्वर में पढ़ने लगा—मैं तृण हूँ, छोटा-सा तृण हूँ, भाई रक्ताम्बर राजवेशा-धारी अशोक, मैं तृण मात्र हूँ। मेरा फूल नहीं है, मेरी छाया नहीं है, अपने मस्तरु को मैं आकाश में नहीं उठा सकता। वसन्त की कोयल मुझे आश्रय बनाकर, कुहू स्वर में सप्ता को उन्मत्त नहीं बनाती—तो भी भाई अशोक, तुम अपनी उस पुष्पाकुरित ऊची शाखा से मेरी स्पेक्षा मत करो—तुम्हारे पैर के नीचे मैं पड़ा हुआ तृण हूँ, इतने पर भी मुझे तुच्छ मत बनाओ।

इतना ही अश उस पुस्तक से पढ़कर अमल लेखक को बेबकूफ बनाते हुए कहने लगा—मैं केले का मोंप हूँ, कच्चे केले का मोंप, भाई कोंहड़ा, भाई घरों के मचानो पर बिहार करने वाले कोंहड़ा, मैं एकदम ही कच्चे केले का मोंप हूँ।

चारु कौतूहल के आवेश में क्रोध दबा न सकी—हँसकर उठी और पुस्तक फेंककर कहा, अपनी लिखी चीज के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं जँचता ?

अमल ने कहा—तुम्हारी बड़ी उदारता है, तृण पाने पर भी उसे निगल जाना चाहती हो।

चारु—अच्छा महाशय, हँसी करने की जरूरत नहीं—जेब में फंसा है बाहर निकालो !

अमलें—क्या है, अन्दाजा लगा लो !

बड़ी देर तक चारु को चिढाकर अमल ने जेब से 'सरोरुह' नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका निकाल कर रख दी ।

चारु देखा कि उस पत्रिका में अमल का वही 'प्याता' नामक निबन्ध प्रकाशित हुआ है ।

चारु ने देखकर चुप हो गई । अमल ने सोचा था कि उसकी भाभी बहुत खुश होगी । किन्तु खुशी का विशेष कुछ लक्षण न देखकर उसने कहा—सरोरुह पत्रिका में मामूली लेखकों के लेख नहीं प्रकाशित होते ।

अमल ने यह बात कुछ बढा चढाकर कह दी कि जिस किसी तरह का लेख पाने पर भी सम्पादक उसे नहीं छोडते । किन्तु अमल ने चारु को समझाकर कहा—इसके सम्पादक बहुत ही बडे दिमाग के आदमी हैं, सौ लेखों में एक लेख ही चुनते हैं ।

सुनकर चारु खुश होने की कोशिश करने लगी पर खुश हो सकी । किस चीज से उसे मन में चोट लगी, उसे समझकर देखने की उसने चेष्टा की, परन्तु कोई उचित कारण प्रकट ही हुआ ।

उजड़ा घर

अमल की लिखी चीज अमल और चारु दोनों की सम्पत्ति है। अमल लेखक है, चारु है पाठक। उसको गुप्त रखना ही उसका प्रधान रस है। उस लेख को सभी पढ़ेंगे और सभी उसकी प्रशंसा करेंगे, इससे तो प्रसन्न ही होना चाहिये, पर अपनी इस उपेक्षा की बात बहोस्वय-अच्छी तरह समझ न सकी।

किन्तु लेखक की आकांक्षा, एक ही पाठक से नहीं मिटती। अमल अपनी रचनायें छपाने लगा। प्रशंसा भी होने लगी। बीच-बीच में भक्तों की चिट्ठियाँ भी आने लगीं। अमल उन सबको अपनी भाभी को दिखलाता। चारु उससे प्रसन्न भो हुई दुखी भी। अमल को लिखने में प्रवृत्त कराने के लिए अब तो एक मात्र उसी के उत्साह और उत्तेजना की जरूरत नहीं रही। बीच-बीच में अमल के पास रमणियों के गुमनाम पत्र भी आने लगे। उस हालत में चारु कुछ हँसी मजाक कर बैठती, पर उसे सुख नहीं मिलता। हठात् उनकी कमिटी के बन्द दरवाजे को खोलकर, पाठक मण्डली उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गयी।

भूपति ने एक दिन मौका पाकर अवकाश के समय कहा—
चारु, हम लोगों का अमल जो इतना अच्छा लिख सकता है, यह बात मुझे मालूम नहीं थी।

भूपति की प्रशंसा से चारू खुश हुई। अमल भूपति का प्राश्रित है, किन्तु अन्य आश्रितों और उनमें फर्क है, इस बात से उसके पति समझते हैं। इससे वह मानो गर्व अनुभव करती। उसका भाव यही था कि अमल को मैं किसलिए इतना स्नेह ग़दर करती हूँ—इतने दिनों के बाद तुम समझ सके—मैंने इतने दिनों पहले ही अमल की मर्यादा समझ ली थी, अमल किसी की अवज्ञा का पात्र नहीं है।

चारू ने पूछा, तुमने उसकी लिखी कोई रचना पढ़ी है ?

भूपति ने कहा—हाँ—नहीं अच्छी तरह नहीं पढ़ी है। समय नहीं मिला। किन्तु हम लोगों का निशिकान्त पढ़कर प्रशंसा कर रहा था। वह लेखों का मर्म भली भाँति समझता है।

भूपति के मन में अमल के प्रति एक तरह की श्रद्धा का भाव गढ़े, यही चारू को आन्तरिक इच्छा है।

३

उमाशद अखबार में लेख देने वालों को पाँच तरह के पुरस्कार देने की बात भूपति को समझा रहा था, किन्तु पुरस्कार कर किस तरह नुकसान सम्भालकर लाभ हो सकेगा यह बात

उजड़ा घूर

भूपति की, समझ में बिलकुल ही नहीं आ रही थी। चारू एक बार कमरे में प्रवेश कर उमापद को देखकर लौट गयी। फिर थोड़ी देर में इधर उधर तबीयत बहलाकर कमरे में गयी तो फिर उसने देखा कि दोनों मिलकर हिसाब के खिलसिले में बहस कर रहे हैं।

चारू की अधीरता देखकर उमापद किसी बहाने कमरे से बाहर चला गया। भूपति हिसाब लेकर सोचने लगा।

चारू ने कमरे में प्रवेश करके पूछा, अब तक भी शायद तुम्हारा काम खतम नहीं हुआ। दिन रात उसी एक समाचारपत्र को लेकर तुम्हारा समय कैसे कटता है, यही मैं सोचती रहती हूँ।

भूपति हिसाब को एक तरफ रखकर कुछ मुस्कराया। मन ही मन सोचा, सच है, चारू की तरफ ध्यान देने का मुझे समय ही नहीं मिलता, यह बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस बेचारी के लिए समय बिताने का कुछ भी साधन नहीं है।

भूपति ने स्नेहभरी आवाज में कहा—आज तुम्हारी पढाई नहीं हुई? मास्टर साहब शायद भाग गये हैं? तुम्हारे पाठशाले के सभी नियम, चलते हैं—छात्रा पोथी-पत्रा लेकर तैयार है और मास्टर लापता! आजकल अमल तुमको पढ़ने की तरह नियम से पढाता है, ऐसा तो नहीं मालूम हो रहा है।

चारु ने कहा—अपने पढ़ाने में लगाकर अमल का समय नष्ट करना क्या उचित है ? मानो तुमने 'अमल' को एक मामूली प्राइवेट ट्यूटर ही समझ लिया है ?

भूपति ने चारु को पास खींचकर कहा—इसे क्या मामूली प्राइवेट ट्यूटरी कहते हैं ? तुम्हारी तरह भाभी पाकर यदि मुझे भी पढ़ाने को मौका मिलता उस हालत में—

चारु—इस् इस् ! तुम और कुछ न बोलो ! पढा लिया पति पाकर भी, मेरे लिये पति के कॉलेज में अपने स्वार्थ की घातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है !

भूपति ने कुछ घायल होकर कहा, अच्छा फल से मैं अवश्य ही तुम्हें पढ़ाना शुरू करूँगा । अपनी पुस्तकें जरा लाओ तो ! देखूँ तुम क्या पढ़ती हो ?

चारु ने कहा—बहुत हुआ, तुमको मुझे और पढ़ाने की जरूरतें नहीं । इस समय जो कर रहे हो वही ठीक है । पढ़ाने लगोगे तो क्या उस हालत में अपने अखबार का हिसाब किताब कुछ रख सकोगे ? तब और किसी तरफ अपने मन को नहीं लगा सकोगे ।

भूपति ने कहा—ठीक कहती हो, इस समय तुम मेरे मन को जिधर घुमाना चाहोगी उधर घूम जायगा ।

चारु—अच्छा, तो अमल के इस लेख को एक बार पढ़कर

देखो कि अच्छा हुआ है? सुनकर भूपति ने कुछ सकोच के साथ पत्रिका को हाथ में ले लिया। खोलकर देखा, लेख का शीर्षक है "आषाढ का चाँद"। गत दो सप्ताह से भूपति भारत सरकार के बजट की समालोचना के बारे में बड़े-बड़े आँकड़े तैयार कर रहा था, वे सभी आँकड़े, बहुपदी-कीट-की, भौति उसके मरिचक के बीच चक्कर लगा रहे थे, ऐसे समय में अचानक बंगल भाषा में लिखा हुआ "आषाढ का चाँद" शीर्षक लेख आद्यन्त पढ़ने के लिये उसका मन तैयार नहीं था। निबन्ध बहुत छोटा भी नहीं था।

लेख इस तरह आरम्भ हुआ। "आज क्यों आषाढ का चाँद सारी रात बादल के बीच से छिपता हुआ घू रहा है, मानों, स्वर्गलोक से कोई चीज चुराकर लाया है, मानों फलक छिपाने का स्थान नहीं है। फागुन के महीने जब आकाश के किसी कोने में सुड़ीभर बादल भी नहीं तब तो संसार की आँखों के सामने उसने निर्लज्ज की भौति उन्मुक्त आकाश में अपने को प्रकट किया—और आज उस वह विह्वलना शिशु के स्वप्न की भौति, पिया की स्मृति की भौति—"

भूपति ने मिर खुजुलाकर कहा—बहुत लिखा है

किन्तु क्या यह सब कवित्व-भाव में समझ सकता हूँ ?

चारु ने संकुचित होकर भूपति के हाथ से कागज छान कर कहा—तुम तब क्या समझते हो ?

भूपति ने कहा—मैं सत्कार का मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य को समझता हूँ।

चारु ने कहा—मनुष्य की बातें मानों साहित्य में लिखी नहीं रहती।

भूपति—गलत लिखी जाती है। इसके अलावा जब मनुष्य सशरीर मौजूद है, तब बनावटी बातों के बीच उसे खोजते रहने की जरूरत ?

चारु कहकर चारुलता का चिबुक पकड़कर कहा—मैं तुमको जितना समझता हूँ—उसकी पुष्टि के लिए क्या मेघनाद वग, कवि ककण के चण्डी को आद्यन्त पढ़ने की जरूरत है ?

काव्य समझ नहीं सकता यह कहकर भूपति गर्व अनुभव करता था, किन्तु फिर भी अमल की लिखी हुई चीज अच्छी तरह न पढ़ने पर भी उसके प्रति भूपति के मन में एक प्रकार की श्रद्धा थी। भूपति सोचता, बतलाने समझाने की कोई भी बात नहीं है। तथापि इतनी बातें अनर्गल बनाकर कहना, यह काम तो सिर पटककर मर जाने पर भी मुझमें नहीं हो सकता। अमल के मस्तिष्क में इतनी शक्ति

है, यह कौन जानता था।

भूपति अपनी रसद्वता को अस्वीकार करता था। साहित्य के प्रति उनके मन में कृपणता नहीं थी। कोई दरिद्र लेखक यदि उसे पकड़ता तो-पुस्तक छपाने का खर्च भूपति उसे देता, केवल विशेषरूप से कह देता कि देसना, मुझे यह समर्पित न की जाय-। बँगला भाषा के छोटे बड़े सभी साप्ताहिक और मासिक पत्र, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, पाठ्य, अपाठ्य सभी पुस्तकें वह खरीद लेता। कहता, एक तो पढ़ना ही नहीं फिर यदि न खरीदूँ, तो पाप भी करूँगा, प्रायश्चित्त भी न होगा। पढ़ता नहीं था, इसलिए बुरी पुस्तकों के प्रति उसके मन में लेशमात्र भी द्वेष का भाव नहीं था। उसकी लाइब्रेरी, बँगला पुस्तकों से भरी हुई थी।

अमल-भूपति को-अँग्रेजी-ग्रन्थ देखने के काम में सहायता करता था। किसी एक कापी के दुर्बाध्य लिखावट को दिखलाने के लिए उसने कागजों की एक ढेर लेकर कमरे में प्रवेश किया।

भूपति ने सहसकर कहा, अमल- तुम 'आपाद का चौद' और 'भादो मास के पके ताडपत्र' पर जितना जी चाहे लिखो, मैं उसपर कोई आपत्ति नहीं करता-मैं किसी की स्वाधीनता में टाँग नहीं अड़ाना चाहता-किन्तु मेरी स्व

नता पर हस्तक्षेप क्यों? वह तो उन सबको मुझे बिना दिखाये चैन न लेंगी, तुम्हारी भाभी का यह कैसा अत्याचार?

अमल ने हँसकर कहा—भाभी, मेरे लिये हुए विषयों को लेकर तुम जो इस तरह भैया पर जुर्म करने का उपाय ढूँढ निकालोगी, ऐसा मालूम होता तो मैं लिखता ही नहीं।

साहित्य रस से विमुख भूपति के पास लाकर, अपनी अत्यन्त कष्ट से लिखी हुई चीजों को अपमानित करने से अमल मन ही मन चारु पर रक्षु हुआ। और तुरन्त ही इयबान को समझ कर चारु के मन में कष्ट हुआ। बात को दूसरी तरफ घुमा देने की नियत से उसने भूपति से कहा—तुम अपने भाई का ब्याह कर दो, उस हालत में लिखाई का उपद्रव सहना न पड़ेगा।

भूपति ने कहा आजकल के लड़के हमलोगों की तरह बेवकूफ नहीं हैं। अच्छा हो, अपने देवर को तुम विवाह करने के लिए सहमत कर लो।

चारु के चले जाने पर भूपति ने अमल से कहा, अमल मुझे इस अखबार के कमेले में फँसा रहना पड़ता है, चारु बेचारी बहुत ही अकेली पड़ गयी है, कोई काम काज नहीं है। बीच बीच में मेरे इस लिखने के कमरे में माँककर सौट जाती है। क्या करूँ, बतलाओ। अमल, तुम उसे कुछ लिखने

उजड़ा धर

'पढने में व्यस्त रख सको तो अच्छा हो। कभी कभी अंग्रेजी काव्य से अनुवाद करके उसे सुना दिया करो। भलाई भी होगी और अच्छा भी लगेगा। चारू साहित्य विशेष रुचि रखती है।

अमल ने कहा, हाँ, रुचि तो है। यदि भाभी कुछ और पढ लिख लेंगी तो मुझे विश्वास है कि वे स्वयं बहुत अच्छा लिख सकेंगी ?

भूपति ने हँसकर कहा, उतनी आशा नहीं करता, किन्तु चारू बड़ला लोगों की अच्छाई या बुराई मुझमें अधिक समझ सकती है।

अमल—उसमें बहुत अच्छी कल्पना-शक्ति है, बियों में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता।

भूपति—पुरुषों में भी बहुत कम दिखाई पड़ता है। इसका गवाह मैं हूँ, अच्छा, यदि तुम अपनी भाभी को योग्य बना सको तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूँगा।

अमल—क्या दोगे, सुन लो।

भूपति—तुम्हारी भाभी की-सी एक जोड़ी खोज ला दूँगा।

अमल—फिर उसे लेकर पढाने लिखाने में लग जाय पड़ेगा। चिरकाल तक क्या योग्य बनाते रहने में ही समाविष्टाऊँगा।

उजड़ा घर

दोनों भाई आजकल के नयी दुनिया के लड़के हैं, कोई भी बात उनके मुँह में रुकावट नहीं डालती।

४

समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करके अब अमल ने अपना मातृक बहुत ऊँचा उठा लिया है। पहले वह स्कूल के छात्र की भँति रहता था, अब वह मानो समाज के प्रतिष्ठित लोगों की तरह हो गया। कभी कभी सभा में साहित्यिक निबन्ध पढता है—सम्पादक और सम्पादक के प्रतिनिधि उसके घर आकर बैठे रहते हैं, उसे निमन्त्रित करके खिलाते पिलाते हैं, तरह तरह की सभाओं के सन्ध्य और सभापति बनने के लिए उसके पाम अनुरोध करने के लिये लोग आया करते हैं। भूगति के घर में दास दासियों और आत्मीय स्वजनों की आँखों में उसके सम्मानित पद का स्थान बहुत ऊँचाई पर चढ गया है।

मन्दाकिनी ने इतने दिनों तक उसे कोई खास व्यक्ति नहीं समझा था। अमल और चारु के हास्यपूर्ण वार्तालाप और आलोचना को वह बचपन का खेल समझकर उपेक्षा करती और पान लगाने तथा घर के कामों में व्यस्त रहा

उजड़ा घर

करती थी। अपने को वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ और ससा-
धे लिए जरूरी जानती थी।

अमल बहुत अधिक पान खाया करता था। मन्दा पर लगाने या र्च करने का भार था, इस कारण वह पान की बरबादी से रञ्ज होती थी। अमल और चारू पडयन्त्र करके मन्दा के पान का भण्डार लूट लेने में आनन्द पाते थे और यह काम उनके लिए एक तरह का आमोद था। किन्तु इन दोनों शौकीन चोरों का यह परिहास मन्दा को आमोदजनक नहीं मालूम होता था।

असल बात यह है कि एक आश्रित दूसरे आश्रित को अच्छी निगाहों से नहीं देखता। अमल के लिए मन्दा को जो कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ता था, उससे मन्दा को वह कुछ अपना अपमान मालूम करती थी। चारू अमल के पक्ष में थी, इसलिए मुँह रोलकर वह कुछ कह नहीं सकती थी, किन्तु अमल की अवहेलना करने की कोशिश बराबर ही जारी रहती थी। मौका पाते ही दास दासियों को सुनाकर चुपके से अमल के नाम पर खोच लगाने में वह बाज नहीं आती थी। वे लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे।

किन्तु जब अमल का उत्थान आरम्भ हुआ, तब मन्दा को मालूम हुआ कि अब वह पहले का अमल नहीं है। अब

उबड़ा घाँ

स हृचित नम्रना एक दम घट गई है, दूसरे की अवज्ञा करने का अधिकार मानो अब उसी को प्राप्त है। ससार में प्रतिष्ठा प्राप्त करके जो पुरुष संयम-रहित होकर वेधदक अपना प्रचार कर सकता है, जिस मनुष्य ने एक निश्चित अधिकार पा लिया है, वह समर्थन पुरुष सहज ही में नारी की दृष्टि आकर्षित कर सकता है। मन्दा ने जब देखा कि अमल चारों तरफ से ही श्रद्धा पाने लगा है, तब उसने भी अमल के ऊँचे मस्तक की तरफ मुँह उठाकर देखा।

अब इस हालत में पान घुराने की जरूरत नहीं रह गयी। अमल की प्रसिद्धि बढ़ जाने से चारु का इस तरह एक नुरुसान हुआ, उसके पड्यन्त्र का कौतुक-धन्धन खिन्न हो गया। अब तो अमल के पास पान स्वयं हाजिर हो जाता है, कोई अभाव नहीं रहता।

इसके अतिरिक्त वे दोनों दल संगठन करके, मन्दाकिनी को तरह तरह की युक्तियों से दूर रखकर जिस प्रमोद का धपभोग करते थे, वह भी नष्ट हो जाने की घड़ी आ गयी। मन्दा को दूर रखना कठिन हो चला। अमल के मन में यह धारणा दृढ़ हो जाना कि चारु ही उसकी एकमात्र मित्र है, यह बात मन्दा को अच्छी नहीं लगती थी। पहले की अव-
हेलना को सूद और असल के साथ चुका देने को वह तैयार

उजडा घा

करती थी। अपने को वह उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ और ससा के लिए जरूरी जानती थी।

अमल बहुत अधिक पान खाया करता था। मन्दा पर लगाने या खर्च करने का भार था, इस कारण वह पान की बरबादी से रक्ष होती थी। अमल और चारू पडयन्त्र करके मन्दा के पान का भण्डार लूट लेने में आनन्द पाते थे और यह काम उनके लिए एक तरह का आमोद था। किन्तु इन दोनों शौकीन चोरो का यह परिहास मन्दा को आमोदजनक नहीं मालूम होता था।

असल बात यह है कि एक आश्रित दूसरे आश्रित को अच्छी निगाहों से नहीं देखता। अमल के लिए मन्दा को जो कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ता था, उससे मन्दा को वह कुछ अपना अपमान मालूम करती थी। चारू अमल के पक्ष में थी, इसलिए मुँह खोलकर वह कुछ कह नहीं सकती थी, किन्तु अमल की अवहेलना करने की कोशिश बराबर ही जारी रहती थी। मौका पाते ही दास दासियों को सुनावर चुपके से अमल के नाम पर खोच लगाने में वह बाज नहीं आती थी। वे लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे।

किन्तु जब अमल का उत्थान आरम्भ हुआ, तब मन्दा को मालूम हुआ कि अब वह पहले का अमल नहीं है। अब -

उजड़ा घा

स तृचित नम्रता एक दम घट गई है, दूसरे की श्रवणा करने का अधिकार मानो अब उसी को प्राप्त है। ससार में प्रतिष्ठा प्राप्त करके जो पुरुष संयम-रहित होकर वेधइक अपना प्रचार कर सकता है, जिस मनुष्य ने एक निश्चित अधिकार पा लिया है, वह समर्थन पुरुष सहज ही में नारी की दृष्टि आकर्षित कर सकता है। मन्दा ने जब देखा कि अमल चारों तरफ से ही श्रद्धा पाने लगा है, तब उसने भी अमल के ऊँचे मस्तक की तरफ मुँह उठाकर देखा।

अब हम हालत में पान घुराने की जरूरत नहीं रह गयी। अमल की प्रसिद्धि बढ़ जाने से चारु का इस तरह एक तुकसान हुआ, उसके पड़्यन्त्र का कौतुक बन्धन छिन्न हो गया। अब तो अमल के पास पान स्वयं हाजिर हो जाता है, कोई श्रभाव नहीं रहता।

इसके अतिरिक्त वे दानों दल संगठन करके, मन्दाकिनी को तरह तरह की युक्तियों से दूर रखकर जिस प्रमोद का उपभोग करते थे, वह भी नष्ट हो जाने की घड़ी आ गयी। मन्दा को दूर रखना कठिन हो चला। अमल के मन में यह गारणा दृढ़ हो जाना कि चारु ही उसकी एकमात्र मित्र है, यह बात मन्दा को अच्छी नहीं लगती थी। पहले की अव ईलना को सूद और अमल के साथ चुका देने को वह तैयार

उजड़ा घर

हो गयी। इसलिये अमल और चारू ज्योंही परस्पर एक दूसरे के सामने आ जाते त्योंही मन्दा किसी न किसी बहाने बीच में पहुँच कर 'ग्रहण' लेगा देती। हठात उसमें यह परिवर्तन देखकर उसकी अनुपस्थिति में उसका परिहास कर सकने का मौका मिलना भी चारू के लिए कठिन हो गया।

मन्दा का यह बिना बुलाये ही प्रवेश होना चारू को जितना कष्टकर मालूम होने लगा उतना अमल को नहीं, यह घतलाने की कोई जरूरत नहीं है। विमुग्ध रमणी का मन धीरे धीरे उसकी तरफ लौटा आ रहा है, इससे वह मन ही मन एक प्रकार के कौतूहल का अनुभव करने लगा था।

किन्तु जब चारू दूर से ही मन्दा को देखकर तीव्र मृदु स्वर में कहती, "वह चली आ रही है"—तब अमल भी कहता, "हाँ, देखो न! इमने तग कर मारा है"—दुनियाँ के अन्य सभी ससर्गों के प्रति असहिष्णुता प्रगट करने की उसकी एक आदत सी पड़ गयी थी। अमल उसे अचानक क्या कहकर छोड़ देता। अन्त में मन्दाकिनी एकदम पास आ जाती, तब अमल मानो बलपूर्वक सज्जनता दिखलाकर कहता—मन्दा भाभी! आज क्या तुमने अपने पान के डब्बे में कुछ गडबड़ी का लक्षण देखा है?

मन्दा—जब मोंगते ही तुरन्त पा जाते हो, तब भाई

उजडा घा

वोरी करने की क्या जरूरत है ?

अमल—भाँग कर पाने से, उसमें ज्यादा सुख है।

मन्दा—तुम लोग क्या पढ रहे थे, पढो न भाई ! रुक क्यों गये ? मैं पढना सुनना बहुत ही पसन्द करती हूँ।

इसके पहले पाठानुराग के लिए यश-अर्जन करने की चेष्टा मन्दा में कभी नहीं देखी गई थी, किन्तु "कालोहि नलवत्तर ।" चारु की यह विलकुल ही इच्छा नहीं है कि अमल नीरस मन्दा के पाम कुश्र भी पढे, और अमल चाहता है कि मन्दा भी उसके लेख आदि सुन लिया करे।

चारु ने मन्दा को लक्ष कर कहा—अमल ने कमलकान्त के अक्षर की समालोचना लिगी है, वह क्या तुम्हारी

मन्दा—मानती हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, फिर भी सुनने से क्या रकड़म ही न समझ सकूँगी।

तब किसी दूसरे दिन की बात अमल को याद पड़ी। चारु और मन्दा ताश खेल रही थीं ऐसे ही समय अपना तेव हाथ में लेकर अमल खेल की बैठक में पहुँच गया। चारु को सुनाने के लिये वह व्याकुल हो रहा था। खेल प्रथम नहीं हो रहा है, देखकर वह चिढ़ रहा था। अन्त में बोला, भाभी तुमलोग खेलो, तब तक मैं अगिल बाबू को लेख सुना आऊँ।

उजड़ा घर

चारु ने अमल को चादर खींचकर कहा, आह ! बैठ जाओ न, कहाँ जाते हो ?—कहकर शीघ्र द्वार कर खेल खतम कर दिया ।

मन्दा ने कहा, अब तुम लोगों की पढाई शायद शुरू होगी ? तब मैं जा रही हूँ ।

चारु ने भद्रता दिखलाकर कहा, क्यों तुम भी सुन लो न बहिन !

मन्दा—नहीं बहिन, मैं तुम लोगों की उन बातों को कुछ भी नहीं समझ सकती—मुझे केवल नोंद आने लगती है, कहकर असमय से ही खेल बन्द हो जाने से बहुत रक्ष होकर चली गयी ।

वही मन्दा आज कमलाकान्त की समलोचना सुनने की तैयार है । अमल ने कहा, अच्छी बात है, तुम सुनोगी, यह तो मेरा अहोभाग्य है !—कहकर पत्रा उलटकर फिर उसने शुरू से पढ़ने का रुख दिखलाया । लेख के आरम्भ में उसने बहुत कुछ रस सञ्चारित किया था, उस अश को छोड़कर पढ़ने की इच्छा नहीं हुई ।

उजड़ा घर

चारु—आज ही के लिए तो कहा था, शायद तुम भूल गये ?

अमल—भूलूँगा क्यों ? तुमने तो कहा था .

चारु—बहुत अच्छा मत लाओ। तुम लोग पटो, मैं जाती हूँ, और परेश को लाइब्रेरी में भेज दूँ, कहकर चारु उठ खड़ी हुई।

अमल को अनर्थ की आशका मालूम हुई। मन्दा मन ही मन समझ गयी और क्षणभर में चारु के प्रति अपने मन को खटा कर लिया। चारु के चले जाने पर, अमल उठ जाऊँ या नहीं सोचकर इधर उधर कर रहा था, कि मन्दा ने कुछ मुसकुराकर कहा—जाओ भाई, मान भग करो जाकर—चारु ने क्रोध किया है। मुझे अपना लेख सुनाओगे तो बड़े फेर में पड़ जाओगे।

इसके बाद उठकर चला जाना अमल के लिए कठिन हो चला। अमल ने चारु के प्रति कुछ विमुख सा होकर कहा, क्यों ! फेर किस घात का ? और तुरन्त लिखित विषय फैलाकर पढ़ने का रुख प्रकट किया।

मन्दा ने दोनों हाथों से उसके लेख को ढाँककर कहा—जरूरत नहीं है भाई, मत पढो कहती हुई मानो आँसू रोककर वहाँ से अन्यत्र चली गई।

चारू निमन्त्रण में गयी थी। मन्दा अपने कमरे में बैठकर बाल की रस्ती तैयार कर रही थी। 'भाभी' कहकर अमल ने कमरे में प्रवेश किया। मन्दा को यह भलीभँति मालूम था कि चारू के निमन्त्रण में जाने का समाचार अमल को अविदित नहीं है। उसने हँसकर कहा, अहा अमल बाबू! किसकी रोज में आकर किसको देव लिया? ऐसा ही तुम्हारा भाग्य है। अमल ने कहा, हाँ, बायीं तरफ का पुआल जिस तरह का है, दाहिनी ओर का भी ठीक उसी तरह का है, गधे के लिए नो दोनों ही समान आदर की चीजें हैं। यह कहकर वहीं बैठ गया।

अमल—मन्दा भाभी, तुम अपने गाँव की कोई-प्रचलित कहानी सुनाओ तो।

लेख का विषय समझ करने के लिए, अमल सबकी सभी बातें बड़े चाव से सुना करता था। इसलिए वह अब पहले की तरह उसकी एकदम उपेक्षा नहीं करता। मन्दा का मनस्तत्व—मन्दा का इतिहास अब उसके लिए उत्सुकता का विषय हो गया है। उसका जन्मस्थान कहाँ है, उसका गाँव कैसा है, बचपन में समय कैसे कटता था, कन विवाह हुआ आदि सभी बातें

उजड़ा घर

वह खोद खोदकर पूछने लगा। मन्दा के छोटे से जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में किसी ने आज तक इतनी उत्सुकता नहीं दिखाई थी। मन्दा आनन्द के साथ अपनी सभी बातें बतलाने लगी। धींच धींच में कहती—अरे मैं क्या कह गई, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं।

अमल ने उत्साह बढ़ाकर कहा—नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कहे जाओ। मन्दा के पिता का एक काना गुमास्ता था, वह अपने दूसरे विवाह की स्त्री से भागड़ कर कभी कभी अभिमान में पड़कर अनशन कर देता। अन्त में भूख की ज्वाला से मन्दा के घर किसी तरह चुपचाप भोजन करने के लिए आता था, और देवयोग से एक दिन कैसे उसकी स्त्री ने उसे पकड़ लिया था—यह कहानी जब चल रही थी और ध्यानपूर्वक सुनते सुनते जब अमल सकौतुरुईस रहा था—ऐसे ही समय में चारू ने कमरे के अन्दर प्रवेश किया।

कहानी सूत्र भिन्न हो गया। उसके आगमन से इठाल एक जमी हुई सभा भग हो गई, चारू ने यह साफ तौर से समझ लिया।

अमल ने पूछा—भाभी ! इतनी जल्दी ही लौटकर आ गयीं, क्या बात है ?

उजड़ा घर

चारु ने कहा—यही तो देखती हूँ, बहुत जल्द ही लौट आयी हूँ—कहकर चली जाने के लिये तैयार हो गयी।

अमल ने कहा—तुमने अच्छा ही किया, तुमने मेरी रक्षा की। मैं सोच रहा था, न मालूम कब लौटोगी। मन्मथदत्त की 'सन्ध्या की चिड़िया' नामक नयी पुस्तक तुम्हें पढ़कर सुनाने के लिये लाया हूँ।

चारु—अभी रहने दो, मुझे और काम करना है।

अमल—काम है तो मुझे हुकम दो, मैं कर देता हूँ।

चारु को मालूम था कि अमल आज पुस्तक खरीदकर उसे सुनाने के लिये आयेगा। वह अमल के मन में द्वेष पैदा करने के लिये मन्मथ की लेखनशैली की प्रशंसा करेगी और अमल उस पुस्तक को बिगाड़ कर पढ़ता हुआ उपहास करता रहेगा। इन सब बातों को सोचकर ही वह अर्धैर्यवश 'निमन्त्रण देने वालों के सभी अनुनय विनय ठुकराकर तबीयत ठीक न रहने का बहाना करके चली आयी है। अब वह ना धार सोच रही है, वहाँ अच्छी तरह थी, चला आना अनुचित हुआ।

मन्दा भी तो कम बेहाया नहीं है। अकेली अमल के साथ एक कमरे में बैठकर दाँत निकाल कर हँस रही है। लोग देखकर क्या सोचेंगे? परन्तु इस घात को लेकर मन्दा

उजड़ा घर

की भर्त्सना करना चारु के लिये बहुत ही कठिन है। क्योंकि यदि मन्दा उसी का उदाहरण देकर जवाब दे दे तो ! किन्तु वह कुछ और है और यह कुछ और। वह अमल को रचना में उत्साहित करती है, अमल के साथ साहित्यालोचना करती है, किन्तु मन्दा का तो वह उद्देश्य बिल्कुल ही नहीं है। मन्दा अवश्य ही सरल युवक को मुग्ध करने के लिए जाल फैला रही है। इस मयकर विपत्ति से अमल की रक्षा करना उसका ही कर्त्तव्य है। अमल को इस मायाविनी की नीयत कैसे बतला दी जाय या समझा दी जाय ? बतलाने पर उसके प्रलोभन की निवृत्ति न होकर यदि चलता ही जाय ?

बेचारा भैया ! वे अपने मालिक का अखबार लेकर दिन रात मिहनत करके मर रहे हैं और मन्दाकिनी कोने में बैठकर अमल को फुमलाने का आयोजन कर रही है। भैया तो एकदम निश्चिन्त हैं। मन्दा पर उनका अगाध विश्वास है। इन सब बातों को अपनी ही आँखों से देखकर चारु कैसे निश्चिन्त रह सकेगी। यह तो भारी अन्याय होगा।

किन्तु पहले अमल बहुत अच्छा था। जिस दिन से लिखना शुरू करके उसने नाम कमाया है, उसी दिन से सभी

उजड़ा घर

अनर्थ दिखाई पडने लगे हैं।-चारु ही तो उसकी लेखन कला की जड़ है। अशु क्षण में ही उसने अमल को साहित्य रचना में उत्साह दिया था। अब क्या अमल पर उसका पहले की तरह जोर चलेगा ? अब अमल ने-पाँच आदिमियों के अन्दर का स्वाद पा लिया है, अतः एक को छोड़ देने से भी उसका कुछ होता जाता नहीं।

चारु ने साफ तौर से समझ लिया कि उसके हाथ से छूटकर अन्य के हाथ में पडने से अमल पर भारी विपत्ति आ पड़ी है। चारु को अमल अब ठीक अपनी बराबरी में नहीं समझता—चारु की बुद्धि-सीमा को वह पार कर गया है। वह अब लेखक है और चारु है पाठक। इसका प्रतिकार करना ही होगा।

अहा ! सरल अमल, मायाविनी मन्दा, बेचारा भैया।

६

उस दिन, आषाढ के नये नये बादलों से आकाश आच्छन्न था। कमरे में अन्धकार फैल जाने के कारण चा अपनी खुली खिड़की के पास एकदम मुककर कुछ लिख रही थी।

द्वियालीस

अमल कब बगैर पैर की आइट के ही उसके पोछे आकर खड़ा हो गया, यह वह बिल्कुल ही न जान सकी। बादल के सिग्ध प्रकाश में चारु लिपने लगी और अमल पढने लगा। पास ही अमल के दो चार छपे हुए लेख खुने हुए हैं। चारु के लिए वे ही, सब रचनाओं में एक मात्र आदर्श हैं।

“तुम कहा करती थी कि लिपना नहीं जानती!” इठाल अमल की आवाज सुनकर चारु एकदम आश्चर्य में पड़ गयी और उठकर शीघ्रता से साता छिपा दिया—कहा यह तो तुम्हारा भारी अन्याय है।

अमल—क्या अन्याय किया है ?

चारु—छिपकर क्यों देख रहे थे ?

अमल—प्रकट देख लेने पर कुछ बोलना पडता।

चारु अपना लिखा हुआ पाठकर फेंकने के लिए तैयार हो गया। अमल ने मूटपट उसके हाथ से साता छीन लिया। चारु ने कहा, यदि तुम पढ लोगे तो जन्मभर के लिए तुमसे बिगाड़ हो जायगी।

अमल—यदि पढने के लिये मना करोगी तो तुम्हारे साथ जीवनभर के लिए बिगाड़

चारु—मेरे सिर की शपथ है तुम्हें, पढो मत।

उजड़ा-घर

अनर्थ दिखाई पड़ने लगे हैं। चारु ही तो उसकी लेखन कला की जड़ है। अशु क्षण में ही उसने अमल को साहित्य रचना में उत्साह दिया था। अब क्या अमल पर उसका पहले की तरह जोर चलेगा ? अब अमल ने पाँच आदमियों के अन्दर का स्वाद पा लिया है, अतः एक को छोड़ देने से भी उसका कुछ होता जाता नहीं।

चारु ने साफ तौर से समझ लिया कि उसके हाथ छूटकर अन्य के हाथ में पड़ने से अमल पर भारी विपत्ति आ पड़ी है। चारु को अमल अब ठीक अपनी बराबरी में नई समझता—चारु की बुद्धि-सीमा को वह पार कर गया है वह अब लेखक है और चारु है पाठक। इसका प्रतिकार करना ही होगा।

अहा ! सरल अमल, मायाविनी मन्दा, बेचारा भैया।

६

उस दिन, आषाढ के नये नये बादलों से आकाश आच्छन्न था। कमरे में अन्धकार फैल जाने के कारण चारु अपनी खुली रिडकी के पास एकदम झुककर कुछ लिख रही थी।

उजड़ा घर

अमल कब बगैर पैर की आइट के ही उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, यह वह बिल्कुल ही न जान सकी। बादल के स्निग्ध प्रकाश में चारु लिपिने लगी और अमल पढ़ने लगा। पास ही अमल के दो चार छपे हुए लेख खुले हुए हैं। चारु के लिए वे ही, सब रचनाओं में एक मात्र आदर्श हैं।

“तुम कहा करती थी कि लिपिना नहीं जानती।” हठात् अमल की आवाज सुनकर चारु एकदम आश्चर्य में पड़ गयी और सठकर शीघ्रता से खाता छिपा दिया—कहा वह तो तुम्हारा भारी अन्याय है।

अमल—क्या अन्याय किया है ?

चारु—छिपकर क्यों देख रहे थे ?

अमल—प्रकट देख लेने पर कुछ बोलना पड़ता।

चारु अपना लिपिना हुआ पाइकर फेंकने के लिए तैयार हो गयी। अमल ने मूटपट उसके हाथ से खाता छीन लिया। चारु ने कहा, यदि तुम पढ़ लोगे तो जन्मभर के लिए तुमसे बिगाड़ हो जायगी।

अमल—यदि पढ़ने के लिये मना करोगी तो तुम्हारे साथ जीवनभर के लिए बिगाड़ ..

चारु—मेरे सिर की शपथ है तुम्हें, पढो मत।

उजड़ा घर

अन्त में चारु को ही हार मान लेनी पड़ी, क्योंकि अमल को अपना लेख दिखाने के लिए उसका मन छूटपटा रहा था, फिर भी दिखलाते समय उसे इतनी लज्जा मालूम होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। अमल जब बहुत ही अनुनय करके पढ़ने लगा तब लज्जा से चारु के हाथ पैर बर्फ की भाँति ठड़े प गये। मैं पान लेकर आ रही हूँ, कहकर जल्दी जल्दी पास के कमरे में पान लगाने के बहाने चली गयी।

अमल ने पढ़ना समाप्त करके चारु से जाकर कहा, बहुत अच्छा लिखा है।

चारु ने पान में कत्था देना भूलकर कहा, जाओ अब हँसी मजाक करने की जरूरत नहीं। दो, मेरा खाता दे दो।

अमल ने कहा—खाता, अभी नहीं दूँगा। लेख नकल करके समाचार-पत्र में छपने के लिए भेजूँगा।

चारु—हाँ, समाचार पत्र में भेज दोगे क्या? ऐसा नहीं होगा।

चारु भारी गड़बड़ी करने लगी। अमल ने भी किमी तरह नहीं छोड़ा। जब उसने बराबर शपथ खाकर कहा कि यह समाचार पत्र में देने योग्य हुआ है, तब चारु ने मार्त अत्यन्त हताश होकर कहा, तुम्हारे साथ होड करने

उजड़ा घर

मुझमें शक्ति नहीं है। जो जिद्द पकड़ लोगे उसे छोड़ोगे ही नहीं। अमल ने कहा, भैया को एक बार-दिरलाना होगा। यह सुनकर चारु पान लगाना छोड़कर-आसन से बहुत तेजी से उठो और खाता छीन लेने की कोशिश करते हुए कहा,—नहीं, उनको न सुना सकोगे। उनसे यदि मेरे, लेख की बात बतलाओगे तो मैं फिर एक अक्षर भी न लिखूंगी।

अमल—भाभी, तुम भारी गलती पर हो। भैया मुँह से जो कुछ भी क्यों न कहे, तुम्हारा लेख देखकर बहुत ही खुश होंगे।

चारु—होने दो मुझे खुशी की जरूरत नहीं है।

चारु प्रतिज्ञा करके बैठी थी कि वह लिखेगी और अमल को आश्चर्य में डाल देगी। मन्दा और उसमें बहुत अधिक फर्क है, इस बात को सिद्ध क्रिये बिना चैन न लेगी। इधर कई दिन काफी लिखकर उसने फाड़ दिया है। जो लिखने लगती है, वह बहुत ही अधिक अमल की शैली से मिलता जुलता सा हो जाता है। दोनों की तुलना करने पर वह देखती है कि एक-एक अक्षर अमल के लेखों से प्रायः उद्धृत हो चले हैं। ब्रेही अच्छे हैं, बाकी फच्चे हैं। अमल देखकर अवश्य मज ही मन हसेगा, यह सोचकर चारु ने उन लेखों को टुकड़े टुकड़े फाड़कर पोखरे में फेंक दिया ताकि उनका कोई अक्षर-भी देवात् अमल के हाथ

में न पड़ जाय।

पहले उसने लिखा था—“सावन का बादल”। सोचा था भावाश्रु जल से अभिषिक्त बहुत ही अच्छा नया लेख लिख चुकी है। हठात् होश होने पर उसने देखा कि यह चीज अमल के ‘आषाढ़ का चाँद’ शीर्षक लेख का इधर उधर का अशमात्र है। अमल ने लिखा है—भाई चाँद, तुम बादलों के बीच चोर की तरह छिपकर क्यों घूम रहे हो—चारू ने लिखा था, सखी कादम्बिनी, हठात् कहीं से आकर अपने नीलाञ्जल के नीचे चाँद को चुराकर भागी जा रही हो, इत्यादि।

किसी तरह भी अमल के प्रभाव से बचने में असमर्थ होकर अन्त में चारू ने रचना का विषय बदल दिया। चाँद, बादल, आदि छोड़कर उसने ‘कालीतला’ नामक एक लेख लिखा। उसके गाँव में छाया से अंधेरी पड़ी हुई पोखरी के किनारे कालीजी का मन्दिर था—उस मन्दिर को लेकर अपने बचपन की कल्पना, उसके बारे में अपना विचित्र सरमरण, उस जाग्रत देवी के महात्म्य के सम्बन्ध में गाँव में चिर-प्रचलित पुरानी कहानी, इन्हीं सब बातों को लेकर उसने एक लेख लिखा। उसका आरम्भिक भाग अमल के लेख के ढाँचे में काव्याढम्बरपूर्ण हुआ था, किन्तु कुछ भाग

उजड़ा घर

बढने के साथ ही, उसका लेख महज में ही सरल देहाती भाषा में, शैली और प्रवाह से परिपूर्ण हो उठा है।

इस लेख को छीनकर अमल ने पढा। उससे मालूम हुआ कि आरम्भ का हिस्सा बहुत सरल हुआ है, किन्तु अन्त तक कवित्व की रक्षा नहीं हो सकी है। जो हो, प्रथम रचना की दृष्टि से लेखिका का उद्यम प्रशंसनीय है।

चारू ने कहा—आओ ! हमलोग एक मासिक पत्रिका निकालने का श्रीगणेश करें। क्या विचार है तुम्हारा ?

अमल—बहुत से रौप्यचक्र न होने पर वह गज कैसे चलेगा ?

चारू—हमलोगों के इस पत्र में कोई खर्च नहीं है। यत्रालय में मुद्रित करने की जगह, हाथ से लिया जायगा। उसमें तुम्हारे और मेरे लेखों के सिवा और किसी के लेख न रहेंगे, किसी दूसरे को पढ़ने न दिया जायगा। केवल दो प्रतियाँ ही निकलेंगी—एक तुम्हारे लिए और दूसरी मेरे लिए।

कुछ दिनों पहले यह प्रस्ताव आया होता तो अमल खुशी से उमड़ उठता, अब उसका गुप्त रखनेवाला उत्साह चला गया है। अब दस पाठकों के सामने लेख न जाने से उसे सन्तोष नहीं मिलता था। फिर भी इस समय पहले का ठाठ रखने के लिए उसने उत्साह दिखाया। कहा, यह तो

उजड़ा घर

चारु ने हाथ से ठेलकर कहा, इसे पढ़कर मैं क्या करूँगी ? अमल के प्रति क्रुद्ध होने के कारण और किसी दूसरी तरफ उसका मन नहीं लग रहा था, परन्तु भूपति ने जोर देकर कहा— एक बार पढ़कर देख तो लो ।

अन्त में चारु ने दृष्टि दौड़ा दो । आधुनिक कुछ लेखकों की भावाढम्बर से युक्त लेखन-शैली को गाली देकर लेखक ने बहुत कडा लेख लिखा है । उसमें मन्मथ दत्त और अमल की लेखन-शैली की बड़ी बडी आलोचना की गयी है—और उसी के साथ, नवीन लेखिका श्रीमती चारुलता की भाषा की अकृत्रिम सरलता, सहज सरसता और चित्र-रचना की निपुणता की विशेष प्रशंसा की गयी है । लिखा गया है कि ऐसी रचना प्रणाली का अनुसरण करके सफलता प्राप्त करने पर ही अमल कम्पनी का विस्तार होगा अन्यथा वे पूरे तौर से फेल हो जायेंगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ।

भूपति ने हसकर कहा—इसे ही कहते हैं गुरुघातक विद्या ।

अपने लेखों की इस प्रशंसा से चारु खुश होकर फिर तुरन्त ही पीड़ित होने लगी । उसका मन मानो किसी तरह भी खुश न होना चाहा । प्रशंसा का लोभनीय-सुधापात्र मुँह के पास तक आते ही वह उसे ठेलने लगी ।

वह समझ गयी कि, उसके लेखों को पत्रों में छपाकर

उजड़ा घर

अमल ने अचानक उसे विस्मित कर देने का पक्का इरादा कर लिया था। अन्त में छुप जाने के बाद निश्चय किया था कि किसी पत्र में प्रशसायुक्त समालोचना निकल जाने पर दोनों को एक साथ दिखलाकर चारु का रोप शान्त करके उत्साह प्रदान करेगा। जब प्रशसा निकली तब अमल आग्रहपूर्वक दिखलाने के लिये नहीं आया। इस समालोचना से अमल को चोट लगी है और चारु को इसे दिखलाना नहीं चाहता, इम नियत से ही वह इन पत्रों को एकदम छिपा गया है। आराम के लिए एकान्त में चारु जो बहुत छोटा सा साहित्य नीड तैयार कर रही थी, अचानक प्रशसा विशालवृष्टि की एक प्रकार की बड़ी शिला आकर उसे एकदम गिरा देने के लिये तैयार है। चारु को यह बात एकदम ही अच्छी न लगी।

भूपति के जाने पर चारु अपने सोने के कमरे में पलंग पर चुपचाप बैठ गयी—सामने सरोरुह और विश्वबन्धु दोनों खुले पड़े थे।

हाथ में खाता लिए चारु को सहसा चकित कर देने के लिए अमल ने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया। पास जाकर देखा कि विश्वबन्धु में निकली समालोचना को खोलकर चाह निमग्न चित्त से पढ़ रही है।

अमल फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। “मुझे

उंजड़ा घर

गाली देकर चारु के लेखों की प्रशंसा की गयी है, इससे आनन्द-विह्वल होने से चारु को अब होश नहीं है।" क्षणभर उसका सारा चित्त मानो कटु स्वाद से भर गया। चारु एक मूर्ख की लिखी समालोचना को पढ़कर, अपने को गुरु की अपेक्षा बड़ी समझने लगी है, यह निस्सदिग्धरूप से समझकर वह चारु पर बहुत ही रक्षित हुआ। चारु के लिए यही उचित होता कि वह पत्रिका को टुकड़े टुकड़े फाड़कर आग में जलाकर राख बना देती।

चारु पर रज होकर अमल ने मन्दा के कमरे के दरवाजे पर पहुँच, चिल्लाकर पुकारा—“मन्दा भाभी !”

मन्दा—आओ भाई आओ ! भला, वगैर कोशिश ही दर्शन तो मिला ! आज मेरा कितना अहोभाग्य है !

अमल—मैंने जो नये लेख लिखे हैं, क्या उसमें से दो एक सुन लोगी ?

मन्दा—कितने दिनों से सुनाऊँगा, सुनाऊँगा। कहकर आशा देते आये हो किन्तु कभी सुनाया तो नहीं ! कोई जरूरत नहीं है भाई, फिर न मालूम कि घर से कौन तुमसे रंज हो जाय तो भारी विपद में पड़ जाओगे—मेरा क्या बिगड़ेगा ?

अमल ने कुछ सीसी आवाज में कहा—रंज होगा कौन, किस कारण से, अच्छा वह तो पीछे देगा जायगा, इस समय

उड़ा घर

तो तुम इन्हें सुन लो। मन्दा मानो बड़े ही आप्रह के साथ शीघ्रता से संयमित होकर बैठ गयी। अमल स्वर ठोकर समारोह पूर्वक पढने लगा।

अमल के लेख मन्दा के लिए एकदम विदेशी हैं, उसमें कहीं पर वह कोई किनारा नहीं देखती। इसलिए पूरे चेहरे पर आनन्द की हसी लाकर अत्यन्त व्यग्रता के भाव से वह सुनने लगी। उत्साह से अमल की आवाज और भी तेज हो उठी।

वह पढ रहा था—अभिमन्यु ने जिस तरह गर्भावाम के समय केवल व्यूह में प्रवेश करना सीखा था, व्यूह से निकलना नहीं सीखा था—नदी के श्रोत ने वसी तरह पर्वत के चट्टानों के दर के बीच रहकर केवल सामने आगे की तरफ चलना ही सीखा था, पीछे लौटना नहीं सीखा। हाय नदी के श्रोत, हाय यौवन, हाय काल, हाय संसार, तुमलोग केवल सामने की ओर ही चल सकते हो—जिस पथ में सस्मरण के उपल-खण्डों को पार करके चले आते हो, उस पथ में फिर किसी दिन घूमकर नहीं देखते हो। मनुष्य का मर्म ही केवल पीछे की ओर जाता है, अनन्त जगत् की तरफ घूमकर भी नहीं देखती।

ऐसे ही समय में मन्दा के दरवाजे के पास एक पर-

उजड़ा घर

छाहीं पड़ी, उस परछाहीं को मन्दा ने देख लिया। किन्तु मानों देखा ही नहीं, ऐसा रुख करके अनिमेष दृष्टि से अमल के मुँह की तरफ देखती हुई अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ना सुनने लगी।

परछाहीं तुरन्त लौटकर चली गयी। चारू इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि अमल के आने पर उसके सामने विश्वबन्धु पत्र को विशेषरूप से लाञ्छित करेगी। और वचन-भंग करके अपने लेखों को मासिक-पत्रों में भेजने के कारण अमल की भर्त्सना भी करेगी।

अमल के आने का समय बीत गया, पर उसका दर्शन नहीं हुआ। चारू ने एक लेख ठीक करके रख दिया है, अमल को सुनाने की इच्छा उसकी है, वह लेख भी ज्यों का त्यों पड़ा है।

ऐसे ही समय में कहीं से अमल का कण्ठ-स्वर सुनाई पड़ा। यह तो मानों मन्दा के कमरे से आ रहा है। शरविद्ध की भोंति वह सठ पड़ी। कदम की आहट किये बिना ही वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गयी। अमल जिस लेख को मन्दा को सुना रहा है, अब भी चारू ने उसे नहीं सुना है। अमल पढ़ रहा था—मनुष्य का मन ही केवल पीछे की तरफ चलता है, अनन्त जगत की तरफ घूमकर भी नहीं देखता।

उजड़ा घर

चारू जिस तरह नि शब्द आयी थी, उसी तरह नि शब्द फिर लौटकर न जा सकी। आज एक के बाद दूसरी, तीसरी चोटों ने उसे एकदम धैर्यच्युत कर दिया था। मन्दा तो एक अक्षर भी नहीं समझ रही है और अमल एकदम बेवकूफ की तरह उसे सुनाकर तृप्ति प्राप्त कर रहा है, यह बात चिल्लाकर कह देने की उसकी इच्छा हुई। किन्तु कुछ भी न कहकर सशब्द पैरों की आवाज से वह उमका प्रचार कर आयी। शयनकक्ष में प्रवेश करके चारू ने घड़ाघड़ किवाड़ बन्द कर दिया।

अमल ने क्षणभर के लिए पढना स्थगित कर दिया। मन्दा ने मुस्करा कर चारू की तरफ इशारा किया। अमल मन ही मन कहा, भाभी की यह कैसी उद्दता। क्या न्होंने यही पक्का समझ लिया है कि मैं उनका खरीदा आ गुलाम हूँ। उनके सिवाय और किसी को लेख पढकर सुना सकूँगा। यह तो भयानक जुल्म है। यह सोचकर वह और भी ऊँची आवाज में पढकर सुनाने लगा। पढना खत्म हो चुकने पर चारू के कमरे के सामने से होकर वह बाहर चला गया। एकबार उधर देखा तो दरवाजा बन्द था।

चारू ने पैर की आहट पहचान ली, अमल उसके

उजड़ा घर

कमरे के पास चला गया—एकबार जरा भी नहीं रुका। क्रोध और लोभ से उसे रुलाई नहीं आयी। अपने नंगे लेखों का खाता निकालकर, उसके प्रत्येक पन्ने को ऐंठकर टुकड़े टुकड़े फाड़कर उसने स्तूपाकार में परिणत कर दिया हाय ! किस अशुभ घड़ी में यह सब लिखने पढ़ने का काम शुरू किया गया था ।

८

सन्ध्या के समय बरामदे के गमलों से फूलों की गंध आ रही थी। छिन्न भिन्न और इधर उधर बिखरे हुए बादलों की भीतर से स्निग्ध आकाश में तारे दिखाई पड़ रहे थे। अचानक चारु ने जूटा नहीं बाँधा है, कपड़े भी नहीं बदले हैं। खिन्नी के पास अन्धकार में बैठी हुई है। वायु के मृदु झरोके उसके बिखरे हुए बाल उड़ रहे हैं और उसकी आँखें इस तरह अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं, यह वह स्वयं नहीं समझ रही है।

ऐसे ही समय में भूरति ने कमरे में प्रवेश किया। उसका मुँह बहुत मलीन है और हृदय भारी हो रहा है।

यह समय भूपति के आने का नहीं है। पत्र के लिए प्रकृ देखकर अन्तपुर आने में उसे प्राय ही देर होती है। आज सन्ध्या के बाद ही मानो किसी तरह की सान्त्वना की प्रत्याशा में चारु के पास आकर हाजिर हो गया।

कमरे में बत्ती नहीं जल रही थी। खुली खिड़की के क्षीण प्रकाश में भूपति ने चारु को खिड़की के पास अस्पष्ट देख लिया, धीरे धीरे पीछे आकर खड़ा हो गया। पैरों की आहट पाकर भी चारु ने मुँह घुमाकर पीछे नहीं देखा। प्रस्तर-मूर्ति की भाँति स्थिर होकर बैठी रह गयी।

भूपति ने कुछ आश्चर्य में पड़कर पुकारा—चारु !

भूपति का कण्ठ-स्वर सुनकर—चकित होकर—चारु बहुत तेजी से उठ खड़ी हुई। भूपति आया है, इसका ख्याल उसे नहीं था। भूपति ने चारु के सिर के बालों को सहलाते हुए स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा—अन्धेरे में तुम बिलकुल ही अकेली बैठी हो चारु ? मन्दा कहां गयी है ?

चारु को जिस तरह की आशा लगी हुई थी आज एक भी नहीं सिद्ध हुई। उसने अचरय ही समझ लिया था कि अमल आकर क्षमा प्रार्थना करेगा—इसलिए तैयार होकर वह प्रतीक्षा कर रही थी। परन्तु आशा विपरीत होते देख वह अपने को रोक न सकी—एकदम रो उठी।

भूपति ने घबड़ाकर, व्यथित होकर पूछा—चारू, क्या हो गया है तुम्हें ?

चारू—क्या हुआ है यह बतलाना कठिन है। ऐसे ही कुछ हो गया है। विशेष कोई बात नहीं है। अमल ने अपने नलेख उसको न सुनाकर मन्दा को सुनाया है, इस बात को लेकर भूपति के पास वह क्या नालिश करे। सुनकर क्या भूपति न हँसेगा ? इस तुच्छ बात में भारी नालिश का विषय किस स्थान पर छिपा हुआ है, उसे ढूँढ़कर निकालना चारू के लिए असाध्य है। अकारण ही वह क्यों इतना अधिक कष्ट पा रही है, इसे ही पूरे तौर से न समझ सकने से उसके कष्ट की मात्रा और भी बढ़ गयी है।

भूपति—बोलो न चारू, तुम्हें क्या हो गया है ? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ अन्याय किया है। तुम तो जानती हो कि काम के क्रमेले में मैं किस तरह पड़ा रहता हूँ, यदि तुम्हारे मन में मैंने कोई चोट पहुँचाई हो तो मैंने अपना इच्छा से नहीं, यह तुम विश्वास रखो। भूपति ऐसे विषयों पर प्रश्न कर रहा है, जिसका एक भी जवाब नहीं दिया जा सकता, इस कारण चारू मन ही मन अधीर हो उठी। सोच लगी, यदि भूपति इस समय छोड़ दे तो जान बच जाय।

दूसरी बार भी कोई उत्तर न पाकर भूपति ने स्नेह

उजड़ा घर

स्वर में कहा—मैं बराबर तुम्हारे पास नहीं आ सका चारु, इसके लिये मैं अपराधी हूँ, किन्तु अब फिर ऐसा न होगा। अब से दिन रात अखबार लेकर ही न पड़ा रहूँगा। मुझे तुम जितना चाहोगी, उतना ही पाओगी।

चारु ने धीरे धीरे कहा—इसलिए नहीं।

भूपति ने कहा—तब किसलिए ?—कहकर पलंग पर बैठ गया।

चारु हृदय में सुलगते हुए क्रोध को सवरण न कर सकी। वह अनमने स्वर में बोली—इस बात को अभी रहने दो, बात को बताऊँगी।

भूपति ने क्षणभर स्तब्ध रहकर कहा—अच्छा अभी रहने दो—कहता हुआ उठकर चला गया। वह अपनी कोई बात कहना चाहता था, परन्तु न कह सका।

भूपति के मन में एक तरह का क्षोभ पैदा हो गया है, यह बात चारु से छिपी न रही। मन में सोचा फिर पुकारूँ। परन्तु बुलाकर कौनसी बात करेगी। अनुनाप ने उसे विद्ध कर दिया, किन्तु खोजने पर उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा।

रात हुई। चारु ने आज बड़े ही यत्न के साथ भूपति के लिए रात्रि का भोजन परोसा और हाथ में पत्थर लेकर

उजड़ा घाँ

बैठ गयी ।

ऐसे ही समय उसने सुना कि मन्दा ऊँची आवाज में पुकार रही है—ऐ ब्रज, ब्रज !—ब्रज के हाजिर होने पर उसने पूछा—अमल बाबू ने क्या भोजन कर लिया है ?—ब्रज ने उत्तर दिया, हाँ, कर लिया है । मन्दा ने कहा, भोजन कर चुके, पर अब तक पान लेकर नहीं गये ? मन्दा ब्रज को फटकारने लगी ।

ऐसे ही समय में भूपति अन्तःपुर में पहुँचकर भोजन करने के लिये बैठ गया—चारू पखा मलने लगी ।

चारू ने आज निश्चय कर लिया था कि वह प्रफुल्ल और स्निग्ध भावों से बहुत तरह की बातचीत करेगी । पहले से ही बातचीत करने का विषय सोचकर तैयार होकर बैठी हुई थी । किन्तु मन्दा का कण्ठ स्वर सुनकर उसकी सभी तैयारी टूट गयी । भोजन के समय वह भूपति से कुछ भी बातचीत न कर सकी । भूपति भी अत्यन्त उदास और अनमना-सा ही गया था, उसने अच्छी तरह भोजन नहीं किया । चारू ने केवल एक बार पूछा, कुछ खा नहीं रहे हो क्यों ?

भूपति ने प्रतिवाद के रूप में कहा, क्यों ? कम, तो नहीं खाया ।

शयनगृह में दोनों की मुलाकात होने पर भूपति ने कहा, आज रात को तुमने कुछ बतलाने के लिए कहा था।

चारू ने कहा—देखो, कुछ दिनों से मन्दा का आचरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसको यहाँ रखने का मुझे और साहम नहीं हो रहा है ?

भूपति—क्यों, उसने क्या किया है ?

चारू—अमल के साथ वह इस तरह बर्ताव करती है कि देखने पर लज्जा मालूम होती है। भूपति ने हँसकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई। अमल तो लड़का है, अभी हाल हाल का ही तो लड़का है।

चारू—तुम तो अपने घर की कुछ भी खबर नहीं रखते, केवल बाहर की खबर पाने के लिये घूमते रहते हो ! जो हो, बेचारे भैया के लिये मैं चिन्ता में हूँ। वे कब खाना खा चुके या नहीं, इसकी कोई भी खोज मन्दा नहीं रखती, पर अमल के पान से चूना खिसक जाने पर तुरन्त ही नौकर चाकरों से झगड कर उपद्रव करने लगती है।

भूपति—औरतों का स्वभाव ही सन्दिग्ध रहता है। क्या ऐसी बात कही जाती है ? चारू ने रज होकर कहा—अच्छा, बहुत अच्छा, हमलोग सन्दिग्ध हैं, पर अपने मकान के अन्दर मैं ऐसी बेशर्मा न होने दूँगी, यह बतला देती हूँ।

उजड़ों घर

चारु की इन सब अमूलक आशकाओं से भूपति मन ही मन हँस उठा और खुश भी हुआ। गार्हस्थ-धर्म में किसी प्रकार के कलक का प्रवेश न हो, इसको ध्यान में रखते हुए साध्वी स्त्रियों में जो अतिरिक्त सतर्क दृष्टि, निक्षेप करने की रुचि दिखलाई पड़ती है उसमें एक माधुर्य और महत्व है।

श्रद्धा और स्नेह के आवेश में भूपति ने चारु का ललाट घूमकर कहा—इसके लिये और कष्ट उठाने की जरूरत न पड़ेगी। उमाप्रद प्रैक्टिस करने के लिए मैमनसिंह जा रहा है, मन्दा को भी साथ लेता जायगा।

अन्त में अपनी दुश्चिन्ता और इन सब अप्रीतिकर आलोचनाओं के हटा देने के अभिप्राय से भूपति ने मेज से एक खाता उठाकर कहा—अपनी लिखी कोई चीज सुनाओ न चारु।

चारु ने खाता छीनकर कहा—यह तुमको अच्छा न लगेगा, मजाक करने लगोगे।

इस बात से भूपति के मन में कुछ दुःख हुआ, किन्तु उसे छिपाकर हँसते हुए कहा—अच्छा, मैं मजाक न करूँगा। ऐसा स्थिर होकर सुनूँगा कि तुमको मालूम होने लगेगा कि मैं स्रो गया हूँ।

किन्तु भूपति को सफलता नहीं मिली—देखते देखते

खाता बही, कई तरह के आवरणों और आच्छादनों के अन्दर गायब हो गई ।

६

भूपति चारु को सब बातें न बतला सका । उमापति भूपति के अखवार का मैनेजर था । चन्दा वसूल करना, छापाखाना और बाजार के लेनदेन का काम सँभालना, नौकरों का वेतन देना आदि सब कामों का भार उमापति पर ही था ।

इसी बीच अचानक एक दिन कागजवाले की एक चिट्ठी चकील की मार्फत मिलने पर भूपति आश्चर्य में पड़ गया । भूपति से उसने २७०० रुपये की माँग पेश की थी । भूपति ने उमापति को बुलाकर पूछा, यह क्या बात है ? ये रुपये तो मैंने तुम्हें दे दिये हैं । कागजवाले का चार पाच सौ रुपये से अधिक रुपया तो न होना चाहिये ।

अमल ने कहा—अवश्य ही इन लोगों ने गजती से

उजड़ा घर

ऐसा किया है।

किन्तु असल बात अब छिपी न रह सकी। कुछ दिनों से उमापति इसी तरह धोका देता आ रहा था। केवल कागज के बारे में ही नहीं, भूपति के नाम पर उमापति ने बाजार में बहुत रुपया कर्ज कर लिया था। गाँव पर वह एक पक्का मकान बनवा रहा है, उसके माल-मसाले के खर्च का कुछ हिसाब भी उसने भूपति के नाम पर लिख दिया है।

जब एक दम कोई भी बात छिपी न रह गयी तब उसने रूखे स्वर में कहा—मैं तो फकीर नहीं हो रहा हूँ, काम करके धीरे-धीरे सब देना चुका दूँगा। तुम्हारा एक पैसा भी यहाँ बाकी रह जाय तो मेरा उमापति नाम नहीं।

उसके नाम की सचाई पर विश्वास कर, भूपति को सान्त्वना नहीं हो सकती थी। रुपये के नुकसान से भूपति को उतनी चोट नहीं लगी, किन्तु अकस्मात् इस विश्वासघातकता से उसे चारों तरफ शून्य दिखाई पड़ने लगा।

उस दिन समय से पहले ही वह मकान के अन्दर चला गया था। दुनियाँ में अवश्य ही विश्वास का एक स्थान है। इसे क्षणभर के लिये अनुभव कर लेने की उसकी इच्छा बनी होती हो चठी थी। उस समय अपने दुःख में पड़ी हुई सन्ध्या का दीप बुझाकर खिडकी के पास अँधेरे में बैठी हुई थी।

उजड़ा घर

उमापद दूसरे ही दिन मैमनसिंह जाने के लिए तैयार हो चुका था। बाजार के महाजनो को यह हाल मालूम होने के पहले ही वह हट जाना चाहता है। भूपति ने घृणा के जोश में आकर उमापद से कुछ भी बातचीत नहीं की। भूपति की मौनावस्था को उमापद ने अपने लिए सौभाग्य का लक्षण समझ लिया था।

अमल ने आकर पूछा—मन्दा भाभी, यह क्या बात हुई ? माल असबाब बाँधकर तैयारी होने लगी ?

मन्दा—हाँ, भाई जाना तो पड़ेगा ही, क्या चिरकाल तक यहाँ रह सकूँगी ?

अमल—रुहों जा रही हो ?

मन्दा—अपने देश, दहात में ।

अमल—क्यों, यहाँ कौन सी असुविधा हो गयी ?

मन्दा—मुझे असुविधा किस बात की होगी। तुम लोगों के साथ थी, सुग से ही थी। किन्तु किसी और को जो असुविधा होने लगी।—कहकर चारू के कमरे की तरफ फटाक किया।

अमल गम्भोर होकर चुप हो रहा। मन्दा ने कहा—छि, क्या ही शर्म की बात है। धायू साहय ने मन में क्या सोचा होगा ?

उजड़ा घर

इस बात को लेकर अमल ने अधिक आलोचना नहीं की। उसने यह निश्चय किया कि चारू ने उन लोगों के सम्बन्ध में ऐसी बात कही है जो कहना उचित नहीं था।

अमल मकान से निकल बाहर चला गया और इधर उधर सड़कों पर घूमने लगा। उसकी इच्छा हुई कि इस मकान में फिर लौट जाना ठीक न होगा। यदि भाभी की बात पर विश्वास कर भैया उन्हें अपराधी समझ लिये हों उस हालत में मन्दा ने जो रास्ता पकड़ा है, मुझे भी उसी रास्ते से चलना चाहिए। मन्दा की विदाई एक तरह से मेरे लिए भी निर्वासना का आदेश है—यह बात केवल मुँह खोलकर नहीं कही गयी है, इतना ही समझ लेना चाहिए। इसके बाद का कर्तव्य बिलकुल स्पष्ट है—और एक क्षण भी यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। किन्तु भैया मेरे प्रति इस तरह की अन्यायपूर्ण धारणा अपने मन में पोषण करेंगे—ऐसा नहीं समझता था। इतने दिनों से वे पूरे विश्वास से मुझे अपने घर में स्थान देकर पालन करते आ रहे हैं, उस विश्वास पर मैंने कभी आघात नहीं पहुँचाया, यह बात भैया को न समझाकर मैं किस तरह जा सकता हूँ।

उस समय भूपति आत्मीय की कृतघ्नता, महाजनों का तकादा, उच्छृङ्खल हिसाब किताब और खाली तहवील लिये

उजड़ा घ

सिर पर हाथ रखकर सोच में पड़ा हुआ था। उसके इस शुष्क मनोदुःख में कोई साझेदार नहीं था—चित्त की वेदना और ऋण के भार के साथ अकेला खड़े रहकर युद्ध करने के लिए भूपति तैयार हो रहा था।

ऐसे ही समय में अमल ने तूफान की भोंति कमरे में प्रवेश किया। भूपति ने अगाध चिन्ता के बीच से हठात् आश्चर्य से पकड़कर अपनी निगाह दौड़ाई। कहा, क्या समाचार है अमल ?—अचानक मालूम हुआ, मानों अमल और कोई भयानक दुःसम्बाद लेकर आया है।

अमल ने कहा—भैया, मेरे प्रति क्या तुम्हारे मनमें किसी तरह का सन्देह उत्पन्न होने का कारण उपस्थित हुआ है ?

भूपति ने आश्चर्य में पड़कर कहा—तुम्हारे प्रति सन्देह ! मन ही मन सोचा, दुनियाँ को जैसा देख रहा हूँ उससे किसी दिन अमल पर भी सन्देह कहेगा, इसमें आश्चर्य नहीं है ?

अमल—क्या भाभी ने मेरे चरित्र के सम्बन्ध में तुमसे किसी तरह की शिकायत की है ?

भूपति ने मोचा—ओ, यह बात। बच गये। स्नेह का अभिमान। उसने सोचा था सब बर्गदी के बाद शायद कोई और विपत्ति आ गयी, किन्तु बड़ी विपत्तियों के समय भी इन मामूली बातों पर ध्यान दिया जाता है। कोई दूसरा मौका

उजड़ा घर

होता तो भूपति अमल का परिहास करता। किन्तु आज उसका चित्त खिन्न था और मन में प्रफुल्लित-बिलकुल ही नहीं था। उसने कहा—क्या तुम पागल हो ?

अमल ने पूछा—क्या भाभी ने आपसे कुछ भी नहीं कहा ?

भूपति—भाभी तुम्हें प्यार करती हैं। तुम्हारी शिकायत उनके मुँह से कभी नहीं सुनी। हाँ, तुम्हारे लेखों के सम्बन्ध में जो कटु समालोचना उस पत्रिका में निकली थी, उससे उनका मन बहुत ही दुःखित और लज्जित है।

अमल इस कथन से चकित हो गया। वह जिस शका-समाधान के लिए व्यग्र होकर आया था, वह पूर्ववत् बना रहा।

भूपति विपत्ति के दिनों में भी बहुत ही शान्त भाव से अपना काम संभालने लगा। परन्तु हृदय के अन्दर उमापति की बेश्वासघातकता से जो ज्वाला धधक रही थी, उसका वेग ज्यों का त्यों घना रहा।

उसके हृदय की व्यथा को कोई नहीं जानता था। दुख ही 'घातों, विपत्ति के समाचार सुनकर मौखिक सहानुभूति देखलाने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं, किन्तु उस दुःख वेपत्ति में भाग लेने, उसे कम करने या उसे एकदम दूर करने की कोशिश करने वालों की संख्या इस ससार में नहीं के बराबर है। जिस व्यक्ति पर निरुद्ध आत्मीय समझकर व्यापार के दायित्व का भार सौंपा गया था, उसके दुराचरण से भूपति का चित्त विचलित हो उठा। यह उसके जीवन में प्रथम कटु अनुभव था।

तरह तरह की भावनाओं से आक्रान्त अमल की स्थिति भी, उसके हृदय में कष्ट देने लगी। वह सोचने लगा—एकएक अमल इतना उदास क्यों हो गया? मैंने तो अपनी जानकारों में कभी उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं किया, जिससे उसके दिल में किसी तरह की चोट लगे।

उजड़ा घर

अन्त में उसने चारु से इस सम्बन्ध में पूछकर अमल की घबड़ाहट का समाधान करने का निश्चय किया।

उस दिन सन्ध्या को ही, भूपति पुनः अन्त पुर में गया और इधर उधर की दो चार बातें करने के बाद, उसने अमल को प्रसन्न छेड़ दिया। परन्तु चारु ने जो कुछ उत्तर दिया उसका शाराश यही था कि मन्दा का आचरण कभी शोभनीय नहीं कहा जा सकता और इस सम्बन्ध में कल रात को जो कुछ उसने कहा वह यथार्थ है, उसमें तिलमात्र भी शका नहीं की जा सकती। अपनी पूर्वोक्त बातों को दुहराकर वह अनमनी होकर कुछ और अधिक चिन्ताग्रस्त हो गयी।

भूपति के मनोभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अमल के प्रति उसके मन में पहले जिस तरह का स्नेह वात्सल्य था अब भी ज्यों का त्यों बना रहा। उसने अमल को बुलवाया थोड़ी देर के बाद अमल ने आकर नम्र स्वर में पूछा, भैया कोई जरूरी काम है ?

भूपति—वैठो अमल ! इननी घबराहट में क्यों रहो ? तुमको किसी बात की चिन्ता सता रही है। अमल आशावाञ्छों से मनको निरुत्साह बना देना तुम्हारे नवयुवक की शोभा नहीं देता। तुमने जो कुछ मुझसे पूछा था, उसका समाधान अपनी भाभी के मामने कर लो।

चौहत्तर

उजड़ा घर

य तुम्हारे प्रति पूर्ववत् साफ और निष्कपट है।

अमल की आन्तरिक व्यथा और भी बढ़ गयी। वह रात पर तर्क वितर्क करे, यह उसकी समझ में नहीं था। प्रीति में कपट का प्रवेश होने से परिणाम कभी अच्छा होता।

अमल की चिन्ताग्रस्त हालत में बैठे देखकर भूपति ने कहा, छा। अब मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। मेरे वहाँ से टूटने पर, तुम फिर एकान्त में मुझसे मिल लेना।

भूपति के चले जाने पर अमल चुपचाप बैठा रहा। व भी मौन रही। मौन भग करने का किसी ने प्रयास किया।

चारु सोचने लगी—क्या यह अमल है ? इतिहास की नाओं की तरह एक एक करके सभी बात उसे याद पड़ने लीं। फिर वह चकित होकर उठ खड़ी हुई। पर्वत मार्ग से ते-चलते हठात् बादलों के छा जाने से, फैले हुए अन्धकार के हो जाने पर, मानों पथिक ने देख लिया कि वह हजारों हाथ अतल गढे में कदम बढाने के लिये तैयार हो रहा था। कुछ बातचीत न करके अमल एकदम तेजी से कमरे से निकल बाहर चला आया।

अमल के इस अद्भुत आचरण का कुछ भी मतलब चारु समझ सकी।

दूसरे दिन भूपति ने फिर अममय में ही शयनकक्ष में प्रवेश करते हुए कहा—चारु, अमल के विवाह का एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है ।

चारु अनमनी-सी बोली—अच्छा, क्या आया है ?

भूपति—विवाह का प्रस्ताव ।

चारु—क्यों, मैं क्या पसन्द नहीं आयी ?

भूपति ठठाकर हस पड़ा—तुमको पसन्द किया है या नहीं यह बात अभी अमल से पूछी नहीं गयी । यदि पसन्द भी किया होगा तो मेरा भी तो छोटा-सा कुछ दावा है, उसे मैं तुरन्त छोड़ भी तो नहीं सकता ।

चारु—आ ! क्या बकवाद कर रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आता । तुमने तो कहा कि तुम्हारे विवाह का सम्बन्ध आ रहा है ।

चारु का मुँह लाल हो उठा ।

भूपति—तब क्या दौड़कर तुमको खबर ।

पाने को भी तो आशा

अमल के विवाह की बात कह

उजड़ा घर

तो फिर देर क्यों ?

भूपति बर्देवान के वकील रघुनाथ बाबू अपनी लड़की के साथ विवाह करके अमल को इंग्लैण्ड भेजना चाहते हैं।

चरु ने आश्चर्य में पढ़कर पूछा—इंग्लैण्ड ?

भूपति—हाँ इंग्लैण्ड !

चरु—अमल इंग्लैण्ड जायगा ! अच्छा ! बहुत अच्छा हुआ, उत्तम बात हुई। तुम एक बार अमल को अपनी राय बतलाकर स्थिति को समझ तो लो।

भूपति—मेरे कहने के पहले तुम यदि उसे बुलाकर एक बात समझा दोगी तो क्या अच्छा न होगा ?

चरु—मैंने तीन हजार बार कहा है। वह मेरी कोई भी बात नहीं मानता। मैं उससे न कह सकूँगी।

भूपति—क्या तुम समझती हो कि वह न मानेगा ?

चरु—और भी तो अनेक बार कोशिश की गयी, किसी तरह भी तो राजी नहीं हुआ।

भूपति—किन्तु इस बार के इस विवाह-प्रस्ताव को ठुकराना उसके लिए उचित न होगा। मुझपर तो बहुत फर्ज हो गया है, अमल को तो मैं उस तरह अब आश्रय नहीं दे सकता।

भूपति ने अमल को बुलवाया। अमल के आने पर उससे कहा—बर्देवान के वकील रघुनाथ बाबू की लड़की के साथ-

उजड़ा घर

—तुम्हारे विवाह की बातचीत हो रही है।— उनकी इच्छा है कि विवाह करके तुमको इंग्लैण्ड भेज दें। तुम्हारी राय क्या है ?

अमल ने कहा—यदि आपकी आज्ञा हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अमल की बात सुनकर दोनो आश्चर्य में पड़ गये। कहते ही वह तुरन्त राजी हो जायगा, यह किसी को भी मालूम नहीं था।

चारु ने तीखी आवाज से मजाक करके कहा—अपने भैया की आज्ञा पाकर ही ये अपनी सम्मति देंगे, यह मुझे मालूम नहीं था। मेरी बातों को सुनने के लिए छोटा भाई बाध्य थोड़े ही है। भैया पर इतने दिनों तक भक्ति कहाँ छिपी थी अमल बाबू ?

अमल ने कुछ भी उत्तर न देकर कुछ हँसने की कोशिश की।

अमल को निरुत्तर देखकर चारु ने मानो उसे होश में लाने के लिये, दुगुने जोश भरे शब्दों में कहा—इससे तो अच्छा है कि तुम स्वयं चाहते हो और यही इच्छा भी है। इतने दिनों तक बनावटी रूप दिखलाकर यह कहते रहने की क्या जरूरत थी कि मैं, विवाह करना नहीं चाहता ? पेट में मुँह में लाज !

भूपति ने उपहास के रूप में कहा—तुम्हारे ही प्रेम के फेर में पड़कर इतने दिनों तक इसने भूल को दबा रखा था—कहीं तुम्हारे मन में डाह न पैदा हो जाय ।

इस बात से चारु लाल होकर हल्ला मचाने लगी और कहा—डाह ! यह तुम क्या कह रहे हो । मेरे मन में क्यों डाह पैदा होगी । इस तरह की बातें करना बहुत भारी अन्याय है ।

भूपति—यह देखो न ! क्या अपनी खी से कोई हँसी मजाक भी न कर सकूँगा ।

चारु—नहीं, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता ।

भूपति—अच्छा, मैंने बहुत अपराध किया । माफ करो ? जो हो विवाह की बात तो पक्की हो गयी न ?

अमल ने कहा—हाँ ।

चारु—लड़की भली है या बुरी है, यह देखने के लिए जाना भी शायद अच्छा नहीं मालूम हुआ । तुम्हारी जो एकदम ऐसी दशा हो गयी है, इसका तो अब तक कुछ भी आभास नहीं मिला था ।

भूपति—अमल ! यदि लड़की को देख लेने की इच्छा हो तो इसका बन्दोबस्त करूँ । मैंने पता लगाया है कि

उजड़ा घर

लड़की बहुत ही सुन्दर है।

अमल—नहीं, देखने की मैं कोई जरूरत नहीं समझता

चारु—उसकी बातें क्यों सुनते हो ? क्या कभी ऐसा भ होता है कि कन्या न देखकर विवाह हो जाय ? वह भले ही देखना चाहे, हमलोग तो देख लें।

अमल—नहीं भैया, अब इसके लिए व्यर्थ ही मैं देर करने की कोई जरूरत नहीं है।

चारु—जरूरत नहीं है। क्यों ? देर करने से छाती फट जायगी, सिर पर टोपी रखकर अभी घर से निकल जाओ। शायद तुम्हारे सात राजाओं की सम्पत्ति, माणिक को कोई छी न ले जाय।

अमल को चारु किसी तरह के मजाक से भी, जरा भी विचलित न कर सकी।

चारु—इंग्लैण्ड भाग जाने के लिये शायद तुम्हारा मन उचट रहा है ? क्यों, यहाँ हम लोग तुम्हें मारपीट रहे थे या पकड़ रहे थे। हैटकोट पहिनकर साहब बने बिना आजकल के लड़कों का मन नहीं लगता। बबुआ, विलायत से लौट आने पर हमलोगों की तरह काले आदमियों को पहचानते न ?

अमल ने कहा—तो फिर विलायत जाने की जरूरत

उजडा घर

ही क्या थी ।

भूपति ने हँसकर कहा—काली सूरत भूल जाने के लिये ही तो सात समुद्र पार किया जाता है । अच्छा-दूर किस बात का है चारू, हम लोग तो हैं ही, काले के भत्तों की कभी न होगी ।

भूपति ने खुश होकर उसी समय बर्दवान पत्र लिखकर भेज दिया । विवाह का दिन निश्चित हो गया ।

१२

इस अवस्था में अचानक बन्द कर देना पड़ा । भूपति सर्च चलाने में असमर्थ हो गया । जन सेवा नामक निर्मल पदार्थ की जिस सार्धना में भूपति इतने दिनों तक ष्काग्रचित्त से निमग्न था, उसे एक ही मुहूर्त में छोड़ देना पड़ा । जीवन की सभी धारायें, जिस अभ्यस्त मार्ग में वर्षों से अचिराम गति से प्रवाहित होती आ रही अचानक एक ही स्थान पर जल के बीच पड़ लिए भूपति विलकुल तैयार नहीं था । अचानक काले अपने इतने दिनों के समस्त उद्योग को

उजड़ा घर

ही क्या थी ।

भूपति ने हँसकर कहा—काली सूरत भूल जाने के लिये ही तो साँत समुद्र पार किया जाता है । अच्छा-बुर किस बात का है चारू, हम लोग तो हैं ही, काले के भक्तों की कभी न होगी ।

भूपति ने खुश होकर उम्मी समय बर्दवान पत्र लिखकर भेज दिया । विवाह का दिन निश्चित हो गया ।

१२

इस अवस्था में अलवार बन्द कर देना पड़ा । भूपति सर्च चलाने में असमर्थ हो गया । जन सेवा नामक निर्मल पदार्थ की जिस साधना में भूपति इतने दिनों तक ष्काग्रचित्त से निमग्न था, उसे एक ही मुहूर्त में छोड़ देना पड़ा । भूपति के जीवन की सभी धारार्यें, जिस अभ्यस्त मार्ग में गत बारह वर्षों से अचिराम गति से प्रवाहित होती आ रहीं थीं, वे मानो अचानक एक ही स्थान पर जल के बीच पड़ गयीं । इसके लिए भूपति त्रिलकुल तैयार नहीं था । अचानक रुकावट पड़ने वाले अपने इतने दिनों के संमस्त उद्योग को वह कहीं लौटाकर

उजड़ा-घर

ले जाय, यह कठिन समस्या उसके समस्त नर्वन करने लगी। सभी कारोबार मानो उपवास-करने-वाले अनाथ बच्चों की भाँति भूपति के मुँह की तरफ देखने लगे, भूपति उन सबको अपने अन्त पुर में करुणामयी, सेवापरायणा पत्नी के सामने लाकर रड़ा कर दिया।

पत्नी के मन में उस समय विविध चिन्ताएँ-व्याप्त हो रही थीं। वह मन ही मन कह रही थी—यह क्या ही आश्चर्य की बात है? अमल का विवाह होगा यह तो अच्छी बात है, किन्तु इतने दिनों के बाद हमलोगों को छोड़कर दूसरे के घर विवाह करके विलायत चला जायगा, इससे उसके मन में एक बार कुछ द्विविधा उत्पन्न हुई? इतने दिनों तक उसे हमलोगों ने इतने यत्न से रखा और ज्यों ही विदाई लेने का जरा सा मौका मिला, त्यों ही कमर कसकर तैयार हो गया, मानों इतने दिनों से अवसर हूँद रहा था। परन्तु मुँह में कितना मीठापन, कितना प्रेम! मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन है। कौन जानता था कि जो व्यक्ति इतना लिख सकता है उसके पास कुछ भी हृदय नहीं है।

उसने अपने हृदय की विशालता के साथ अमल के हृदय की तुलना करके, उस शून्य हृदय के प्रति अत्यन्त अवज्ञा-दिखलाने की खेष्टा की। किन्तु ऐसा वह न कर

सकी। अन्दर ही अन्दर निरन्तर एक व्यथा का उद्वेग, उत्तम धूलि की भोंति, उसके अभिमान का धक्का दे देकर उठाने लगा।

कल ही अमल चला जायगा, फिर भी इधर कई दिनों से उसका दर्शन तक कहीं हुआ। हमलोगों के बीच आपस में एक तरह का जो मतभेद उपस्थित हो गया है, उसे मिटा देने का फिर मौका तक नहीं मिलेगा। प्रति क्षण चारु सोचती रही—अमल खुद ही आ जायगा—हम लोगों के इतने दिनों के खेल इस प्रकार टूट थोड़े ही जायेंगे, किन्तु अमल तो आ ही नहीं रहा है। अन्त में विवश होकर चारु ने अमल को स्वयं बुलवाया।

अमल ने कहला भेजा कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ। चारु अपने बरामदे की चौकी पर जाकर बैठी। सबेरे से ही घने बादल छा गये हैं—चारु अपने बिजरे हुए घाल ममेट कर हाथ में पखा लेकर झलने लगी। बहुत देर हो गई पर अमल का पता नहीं। उसके हाथ की पत्ती रुक गयी। क्रोध, दुःख एवं अधैर्य से उसकी छाती फूल उठी। मन ही मन कहा—अमल नहीं आया तो हर्ज ही क्या!—किन्तु इतने पर भी पैर की आइट सुनते ही उसका मन दरवाजे को तरफ दौड़ जाने लगा।

उजड़ा घर

दूर गिर्जाघर में ग्यारह वजने को आवाज सुनाई पड़ी। स्नान कर चुकने पर अब भूपति भोजन करने आवेगा। अभी अघा घण्टा समय है, अब भी यदि अमल आ जाय। जैसे भी हो इतने दिनों के नीरव भगड़े को आज मिटा देना ही ठीक है—अमल को इस तरह बिदाई नहीं दी जा सकती। समान उम्र के देवर भौजाई के बीच जो बराबर का मधुर सम्बन्ध मौजूद है और तरह तरह के विचारों के सघर्ष, स्नेह के अनेक अत्याचार, सुखालोचनाओं से विजड़ित चिरछायामय जो लता-मण्डप बना हुआ है, उसे क्या अमल आज धूलि में मिलाकर बहुत दिनों के लिये दूर चला जायगा? उसी जड में क्या अन्तिम बार के लिए जल सींचकर न जायगा—अनेक दिनों से देवर भौजाई के बीच जो सम्बन्ध रहा है, उसका क्या यही अन्तिम अश्रुजल है।

प्रायः प्राध घण्टा समय और बीत चला। जूड़े को देखकर उसके एक गुन्धे में अँगुली डालकर चारु बड़ी तेजी से उसे बार बार लपेटने और खोलने लगी। आँसू रोकना कठिन हो गया, नौकर ने आकर कहा—माताजी, बाबू के लिए नारियल-द्वैने की जरूरत है।

चारु ने आँचल से भण्डार की ताली खोलकर फलन करके नौकर के पैरों के नीचे फेंक दी। आश्चर्य में पड़कर

उजड़ा घर

वह ताली लिये वहाँ से चला गया।

चारु की छाती के पास से मानों 'कोई चीज हठात्' गले के पास तक जाने लगी।

ठीक समय पर भूपति हँसता हुआ भोजन करने के लिए आया। हाथ में पट्टा लिए चौके में उपस्थित होकर चारु ने देखा कि अमल भी भूपति के साथ आया है। चारु ने उसके मुँह की तरफ नहीं देखा।

अमल ने पूछा—भाभी, तुमने मुझे बुलाया है?

चारु ने कहा—नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है।

अमल—तब तो अमर जाना चाहता हूँ, अभी मुझे भाले असबाम बहुत कुछ ठीक करना है।

उस समय चारु ने तेज निगाह से एक बार अमल के मुँह की तरफ देखा—कहा, जाओ।

अमल चारु के मुँह की ओर एक बार देखकर चला गया।

भोजन कर चुकने पर भूपति प्रायः कुछ समय तक चारु के पास बैठा करता है। परन्तु आज लेनदेन के हिसाब किताब में अत्यन्त व्यस्त होने के कारण बसने कुछ उदास होकर कहा—आज मैं और अधिक देर तक यहाँ नहीं रह सकूँगा। आज बहुत मरगट है।

उजड़ा घर

चारु ने कहा—जाओ न।

भूपति ने सोचा चारु नाराज हो गयी। कहा, इमका मतलब यह नहीं है कि अभी तुरन्त ही चला जाऊँगा। कुछ विश्राम करने के पश्चात्—कहकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि चारु उदास है। भूपति अनुत्पन्न भाव से बहुत देर तक बैठा रहा, किन्तु किसी तरह भी बातचीत का सिलसिला न जमा सका। बड़ी देर तक बातचीत करने की चेष्टा करके भूपति ने कहा—अमल तो कल चला जायगा, कुछ दिनों तक शायद तुमको अकेली रहने में उदास मालूम होगा।

इस बात का कुछ भी उत्तर न देकर चारु मानो कोई चीज लाने के लिए फुटपट दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर तक इन्तजारी में रहकर भूपति बाहर चला गया।

चारु ने आज अमल के चेहरे की तरफ गौर से देखकर मालूम कर लिया कि इधर कुछ ही दिनों में अमल बहुत दुबला हो गया है—उसके चेहरे पर जबानी की वह स्फूर्ति नहीं रह गयी है। इससे चारु को सुख के साथ साथ दुख भी मालूम हुआ। आसन्न वियोग से ही अमल दुबला दुबला हो रहा है, इसमें चारु को कुछ भी रुन्देह नहीं रहा—किन्तु इस हालत में भी अमल का ऐसा व्यवहार

उजड़ा घेर

क्यों है ? वह किस कारण दूर दूर भागा फिरता है। विदाई के समय जो वह जानबूझकर क्यों विपाक कर रहा है ?

विस्तर पर लेटकर वह सोचने लगी। सोचते सोचते अचानक चकित होकर वह उठ बैठी। हठात् मन्दा की बात याद पड़ी। कदाचित् अमल मन्दा को प्यार करता हो। मन्दा चली गयी, शायद इसी कारण ही अमल इस प्रकार— छि। अमल का मन क्यों ऐसा हो सकता है ? इतना तुच्छ विचार ? ऐसा क्लुपित भाव ? विवाहित रमणी के प्रति उसका मन आकर्षित हो जायगा ? असम्भव ! सन्देह को बड़ी कोशिश से उसने हटा देना चाहा—किन्तु सन्देह उसे जोरों से पकड़े रहा।

धीरे धीरे विदाई का समय आ गया—चाञ्च आकाश में छाये रहे। अमल ने आकर क्राँपती हुई आवाज में कहा— भाभी, मेरे जाने का समय हो गया है, तुम अब से भैया की देखभाल करना। उनकी हालत बहुत ही सकटपूर्ण है— तुम्हारे सिवा उनके लिए सान्त्वना का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

भूपति को घरावर उदास और चिन्तित देखकर ने उनकी दुर्दशा का कारण मालूम कर लिया था। किस तरह चुपचाप अपनी मनोव्यथा के

उजड़ा घर

चारु ने कहा—जाओ न।

भूपति ने सोचा चारु नाराज हो गयी। कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि अभी तुरन्त ही चला जाऊँगा। कुछ विश्राम करने के पश्चात्—कहकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि चारु उदास है। भूपति अनुत्पन्न भाव से बहुत देर तक बैठा रहा, किन्तु किसी तरह भी बातचीत का सिलसिला न जमा सका। बड़ी देर तक बातचीत करने की चेष्टा करके भूपति ने कहा—अमल तो कल चला जायगा, कुछ दिनों तक शायद तुमको अकेली रहने में उदास मालूम होगा।

इस बात का कुछ भी उत्तर न देकर चारु मानो कोई चीज लाने के लिए झटपट दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर तक इन्तजारी में रहकर भूपति बाहर चला गया।

चारु ने आज अमल के चेहरे की तरफ गौर से देखकर मालूम कर लिया कि इधर कुछ ही दिनों में अमल बहुत दुबला हो गया है—उसके चेहरे पर जवानी की वह स्फूर्ति नहीं रह गयी है। इससे चारु को सुख के साथ साथ दुःख भी मालूम हुआ। आसन्न वियोग से ही अमल दुबला दुबला हो रहा है, इसमें चारु को कुछ भी रन्देह नहीं रहा—किन्तु इस हालत में भी अमल का ऐसा व्यवहार

उजड़ा घर

क्यों है ? वह किस कारण दूर दूर भागा फिरता है । विदाई के समय को वह जानबूझकर क्यों विपाक कर रहा है ?

विस्तर पर लेटकर वह सोचने लगी । सोचते सोचते अचानक चकित होकर वह उठ बैठी । हठात् मन्दा की बात याद पड़ी । कदाचित् अमल मन्दा को प्यार करता हो । मन्दा चली गयी, शायद इसी कारण ही अमल इस प्रकार— 'छि' ! अमल का मन क्यों ऐसा हो सकता है ? इतना तुच्छ विचार ? ऐसा क्लुपित भाव ? विवाहित रमणी के प्रति उसका मन आकर्षित हो जायगा ? असम्भव ! सन्देह को बड़ी ओशिश से उसने हटा देना चाहा—किन्तु सन्देह उसे जोरों से पकड़े रहा ।

धीरे धीरे विदाई का समय आ गया—वादल आकाश में छाये रहे । अमल ने आकर क्लोपती हुई आवाज में कहा—भाभी, मेरे जाने का समय हो गया है, तुम अब से भैया की देखभाल करना । उनको हालत बहुत ही सकटपूर्ण है—तुम्हारे सिवा उनके लिए सान्त्वना का कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।

भूपति को बराबर उदास और चिन्तित देखकर अमल ने उनकी दुर्दशा का कारण मालूम कर लिया था । भूपति किम तरह चुपचाप अपनी मनोव्यथा के साथ

उजड़ा घर

है, किसी से सहायता या सान्त्वना न मिलने पर भी अपने आश्रित और आत्मीय स्वजनों को इस सकट में विचलित न होने दिया—इन बातों को सोचकर वह चुप हो रहा। इसके बाद उसने चारू की हालत पर विचार किया, अपनी स्थिति पर भी विचार किया और चेहरा लाल हो उठा। जोर देकर मन ही मन बोला, चूल्हे में जाय आपाड़का और अमावस्या का प्रकाश। बैरिस्टर होकर लौट आने पर यदि मैं भैया को मदद कर सकूँ तभी मैं मनुष्य हूँ।

पिछली रात की सारी रात जागकर चारू ने निश्चय कर लिया था कि विदा करते समय अमल से क्या बातचीत करेगी। सहाय, अभिमान और प्रफुल्ल उदासीनता से मज मजकर उन बातों का उसने खूब अभ्यास कर रखा था, किन्तु विदाई के समय चारू के मुँह से एक बात भी नहीं निकली। उसने केवल कहा—अमल, पत्र लिखोगे तो।

अमल ने जमीन पर मस्तक रखकर प्रणाम किया—
दौड़कर शयनगृह में जाकर चारू ने किवाड बन्द कर लिया।

भूपति बर्दवान गया और अमल का विवाह कर चुकने के बाद उसको इंग्लैण्ड के लिए रवाना कराकर घर लौट आया।

चारो ओर से चोटें खाकर कष्टसहिष्णु भूपति के मन में बाहरी दुनिया के प्रति एक तरह के वैराग्य का भाव धा गया था। सभासमितियों में जाना, समाज के लोगों से मिलना जुलना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। यही ख्याल आया कि इन सबका लेकर मैंने इतने दिनों तक अपने को ही धोखा दिया—जीवन के सुख के दिन व्यर्थ ही बह गये—सार भाग को मैंने कूड़ेदान में फेंक दिया।

भूपति ने मन ही मन कहा—जाने दो, अलवार मन्द हो गया, अच्छा ही हुआ। छुटकारा मिला। सन्ध्या समय अश्वकार का सूत्रपात देखते ही पत्नी जिस तरह अपने घोसलों में लौट आते हैं, उसी तरह भूपति अपने पड़त दिनों के विचरणक्षेत्र को त्यागकर अन्तपुर में चारु के पास चला आया। मन में निश्चय किया, वस अब और कहीं नहीं, यहीं पर अब मेरी स्थिति रहेगी। अलवार के निम

उजड़ा घर

जहाज को लेकर सारा दिन खेलता रहता था, वह दूब गया, अब घर चला जाऊँ।

सम्भवतः भूपति के मन में एक साधारण सत्कार या विचार था कि स्त्रियों पर अधिकार स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्त्रियों ध्रुवतारा की भाँति अपना प्रकाश खुद ही जला रखती हैं, वह हवा में नहीं बुझता और उसमें तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। जब बाहर टूटना फूटना शुरू हुआ तब अंतःपुर में किसी स्थान पर दूसरा फूट निकलो है या नहीं, यह एक बार जाँच करके देखने की इच्छा भी कभी भूपति के मन में नहीं उत्पन्न हुई थी।

शाम को भूपति वर्दवान से घर लौट आया। शीघ्रता से मुह धोकर खाना भी खा लिया। अमल के विवाह और बिलायत यात्रा का शुरू से आखीर तक का हाल सुनने के लिये चारू बहुत ही उत्सुक हो गया होगी, यह समझ कर आज भूपति ने कुछ भी ढेर नहीं की। भूपति सोने के कमरे में जा, बिस्तर पर लेट कर गड़गड़े का लम्बा नल खींचने लगा। चारू अब तक अनुपस्थित है, शायद घर का काम धंधा कर रही होगी। तम्बाकू जल जाने पर थके हुए भूपति को नींद आने लगी। चण चण में नींद का वेग दूट जाता और भूपति आश्चर्य सोचने लगता, अपतक चारू

उजड़ा घर

क्यों नहीं आयी ? अन्त में न रह सकने पर भूपति ने चारु को बुलवाया । ' भूपति ने पूछा, 'चारु ! आज तो तुमने बहुत ही देर कर दी ।

चारु ने केवल सक्षेप में कहा, ' हों आज देर हो गयी ।

चारु के आग्रहपूर्ण प्रश्नों के लिए भूपति प्रतीक्षा करता रहा, परन्तु चारु ने एक भी प्रश्न न पूछा । इससे भूपति का मन कुछ उदास हो चला । सोचने लगा—क्या चारु अमल को प्यार नहीं करती ? जितने दिनों तक अमल यहाँ उपस्थित रहा उतने दिनों तक, चारु उसके साथ हिल मिलकर आमोद-प्रमोद में समय बिताती थी और ज्यों ही वह चला गया, उसके बारे में एकदम उदासीन हो गयी । इस तरह के परस्पर विरोधी आचरण से भूपति के मनमें खटका पैदा हुआ—तो क्या चारु का मन गम्भीर नहीं है ? वह क्या केवल आमोद और हिल बहलाना ही जानती है, प्यार करना नहीं जानती । औरतों का इम प्रकार अनासक्त भाव तो अच्छा नहीं माना जाता ।

चारु और अमल की मित्रता से भूपति को आनन्द मिलता था । इन दोनों का लक्ष्मण, खेलना, आपस में विचार-विनिमय करना उसके लिए मधुर कौतुक था । अमल को चारु जिस तरह प्यार और आदर करती थी उससे

नज़्दा घर

चारु के कोमल हृदय का परिचय पाकर भूपति मन ही मन प्रसन्न होता था। आज वह आश्चर्य में पड़कर सोचने लगा— क्या ये सब ऊपरी व्यवहार, रिक्त हृदय के लेखमात्र थे? क्या हृदय में इन सबका कुछ आधार नहीं था? यदि चारु का हृदय ऐसा ही है तो मुझे कहां आश्रय मिलेगा?

धीरे-धीरे जाँच करने की नियत में भूपति ने उस प्रसंग को छेड़ दिया। पूजा—चारु तुम अच्छी तरह तो हो न, तबीयत गराव तो नहीं है?

चारु ने सचेप में जवाब दिया, अच्छी तरह ही हूँ।

भूपति—अमल का विवाह तो हो गया।

यह कहकर भूपति चुप हो गया। चारु ने समयोचित कोई बात कहने की विशेष चेष्टा की—पर एक बात भी मुँह से न निकली—वह शिथिलता होकर लोट गई।

भूपति स्वभावतः किसी तरफ गौर से नहीं देखता था—किन्तु अमल का वियोग, उसकी विदाई का शोक उसके हृदय में विद्यमान था और इस कारण ही चारु की उदासीनता से उसको चोट लगी। उसकी इच्छा थी कि समवेदना से व्यथित चारु के साथ अमल सम्बन्धी बातचीत करके अपने हृदयभार को हलका कर दे।

भूपति—जिस लड़की से विवाह हुआ है वह बड़ी

अच्छी है। चारू क्या सो रही हो ?

चारू ने कहा—नहीं।

भूपति—बेचारा अमल अकेला चला गया। जब मैंने उसे गाड़ी पर चढाया, वह बालक की भाँति रोने लगा—यह देखकर मैं भी आँसू न रोक सका। डब्बे में दो साहब थे। पुरुष का रोते देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य मालूम हुआ।

दीपक बुझ जाने से कमरे में अन्धकार फैला हुआ था। चारू करवट बदल कर लेट गयी, इसके बाद अचानक विस्तर छोड़कर चली गई।

भूपति ने चकित होकर पूछा, चारू ! क्या तबीयत खराब है तुम्हारी ?

कोई उत्तर न पाकर वह भी उठा। पास ही के दरामदे से सिसकने की आवाज सुनकर वह तेजी से उसके पास पहुँचा। देखा कि चारू जमीन पर पड़ी हुई है और बहुत कष्ट से रुलाई के वेग को रोकने की कोशिश कर रही है।

इस प्रकार का अद्भ्य शोकोच्छ्वास देखकर भूपति फेर में पड़ गया। सोचा, मैंने चारू को क्या गलत ही समझा था। चारू का मनभाव इतना दृढ़ है कि वह मुक्त भी हृदय की व्यथा प्रकट करना नहीं चाहती। जिन लोगों की प्रकृति ऐसी होती है उनका प्रेम बहुत गहरा होता है और

उजड़ा घर

वेदना भी अत्यन्त अधिक होती है। चारु का प्रेम साधारण स्त्री पुरुषों की भाँति बाहर दिखाई नहीं पड़ता—यह बात उसने मन ही मन समझ लिया। भूपति ने चारु के प्रेम का उच्छ्वास कभी नहीं देखा था। उसने अच्छी तरह समझ लिया कि चारु के हृदय में प्रेम का भाव अन्दर दबा पड़ा है। भूपति स्वयं ही अपने हृदय के भावों को बाहर प्रकट करने में निपुण नहीं है। चारु की प्रकृति में हृदय वेग की आन्तरिक गम्भीरता का परिचय पाकर उसे एक तरह की वृप्ति मिली। भूपति तब चारु के पास ही बैठकर, किसी तरह की बातचीत न करके धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा।

भूपति जब अपने अलवार से अवसर ग्रहण कर चुका, तब उसने अपने भविष्य जीवन का एक काल्पनिक चित्र मन हो-मन खींच लिया था—निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी तरह को दुराशा या दुरचेष्टा की तरफ न जाऊँगा। धारु को लेकर लिखना पढ़ना, प्रेम, पारस्परिक दिल बह-लाव आदि से, छोटे से गार्हस्थ्य-जीवन का कर्तव्य पालन करूँगा।

उसने सोच लिया था कि घरेलू सुख सबसे सुज्ञम और सुन्दर है, बराबर हिलाने डुलाने योग्य होते हुए भी पवित्र और निर्मल है। वन सहज लब्ध सुखों के द्वारा अपने जीवन-गृह के कोने में सन्ध्या का प्रदीप जलाकर निभृत शान्ति की स्थापना करूँगा। हसो मजाक, परिहास, परस्पर के मनोरञ्जन के लिए प्रति दिन छोटी मोटी तैयारी में अधिक प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती, और अत्यधिक सुख की प्राप्ति होती है।

कार्यरूप में परिणत करते समय उसे दिखाई पड़ा कि सुख प्राप्ति सहज नहीं है। यह मूढ़ देहर तरीका नहीं

उजड़ा घर

जाता। यदि वह अपने आप मिलता है तो उसे किसी तरह ढूँढ लाने का उपाय भी नहीं।

इस प्रकार किसी युक्ति से भी भूपति चारु के साथ अच्छी तरह अपना ठीक इन्तजाम न सका। इससे उसने अपने को ही अपराधी मान लिया। सोचा—बारह वर्ष तक केवल अखबार में लिख लिखकर समय बिताया, स्त्री के साथ बातचीत किस तरीके से की जाती है, उस विद्या को मैंने एकदम खो दिया है।

सन्ध्या का प्रदीप जलते ही भूपति बड़े ही उत्साह से घर जाता—जाकर दो चार बातें करता, चारु भी कुछ बातचीत करती, फिर बातचीत का सिलसिला टूट जाता। फिर किस विषय पर कौन सी बात कही जाय, इसका निश्चय वह बहुत सोचने पर भी नहीं कर पाता था। अपनी इस असमर्थता से वह स्वयं अपनी स्त्री के सम्मुख लज्जा का अनुभव करता था। स्त्री के साथ बैठकर बातचीत करना कोई कठिन काम नहीं, यही उसका खयाल था। परन्तु उसने अब देख लिया कि प्रेम शून्य व्यक्ति के लिए यह काम बहुत ही कठिन है। सभामण्डप में भाषण करना इसकी अपेक्षा सहज काम है।

जिस सन्ध्याकालीन समय को भूपति ने हास्य, कौतुक

उजड़ा घर

आदर और प्रणय के संयोग से रमणीक समझ लिया था, उस सन्ध्या समय को बिताना उसके लिए एक समस्या हो उठी। कुछ देर तक मौनावलम्बन के बाद भूपति सोचने लगता—यहाँ से चला जाना ही ठीक है, किन्तु चला जाऊगा तो चारु क्या सोचेगी? यह सोचकर उठ भी नहीं सकता। कहता—चारु, ताश खेलोगी?—कोई दूसरा उपाय न देखकर चारु कहती, अच्छा! यह कहकर एकदम अनिच्छा के साथ ताश लेकर बैठ जाती, परन्तु खेलने में बहुत अधिक गलतियाँ करके अनायास ही हार जाती—उस खेल में किसी तरह का सुख नहीं मिलता।

बहुत सोच चुकने पर एक दिन भूपति ने, चारु से पूछा—चारु मन्दा को बुला लिया जाय तो कैसा हो? तुम एकदम अकेली पड़ गयी हो।

मन्दा का नाम सुनते ही चारु जल उठी। कहा—नहीं, कोई जरूरत नहीं है।

मन ही मन खुश हुआ। सोचने लगा—जो धर्म में कुछ भी व्यतिक्रम देवप्रती हैं,

भालकर चारु ने सोचा,—

को, आमोद प्रमोद में

उजड़ा घा

जाता। यदि वह अपने आप मिलता है तो उसे किसी तरह दूढ़ लाने का उपाय भी नहीं।

इस प्रकार किसी युक्ति से भी भूपति चारु के साथ अच्छी तरह अपना ठीक इन्तजाम न सका। इससे उसने अपने को ही अपराधी मान लिया। सोचा—बारह वर्ष तक केवल अखबार में लिख लिपकर समय बिताया, स्त्री के साथ बातचीत किस तरीके से की जाती है, उस विद्या को मैंने एकदम खो दिया है।

सन्ध्या का प्रदीप जलते ही भूपति बड़े ही उत्साह से घर जाता—जाकर दो चार बातें करता, चारु भी कुछ बातें चीत करती, फिर बातचीत का सिलसिला टूट जाता। फिर किस विषय पर कौन सी बात कही जाय, इसका निश्चय वह बहुत सोचने पर भी नहीं कर पाता था। अपनी इस असमर्थता से वह स्वयं अपनी स्त्री के सम्मुख लज्जा का अनुभव करता था। स्त्री के साथ बैठकर बातचीत करना कोई कठिन काम नहीं, यही उसका खयाल था। परन्तु उसने अब देखा कि प्रेम-शून्य व्यक्ति के लिए यह काम बहुत ही कठिन है। सभामण्डप में भाषण करना इसकी अपेक्षा सब से कठिन काम है।

जिस सन्ध्याकालीन समय को भूपति ने हास्य, कौतुक

उजड़ा घर

आदर और प्रणय के संयोग से रमणीक समझ लिया था, उस सन्ध्या समय को बिताना उसके लिए एक समस्या हो उठी। कुछ देर तक मौनावलम्बन के बाद भूपति सोचने लगता—यहाँ से चला जाना ही ठीक है, किन्तु चला जाऊँगा तो चारु क्या सोचेगी? यह सोचकर उठ भी नहीं सकता। कहता—चारु, ताश खेलोगी?—कोई दूसरा उपाय न देखकर चारु कहती, अच्छा! यह कहकर एकदम अनिच्छा के साथ ताश लेकर बैठ जाती, परन्तु खेलने में बहुत अधिक गलतियाँ करके अनायास ही हार जाती—उस खेल में किसी तरह का सुख नहीं मिलता।

बहुत सोच चुकने पर एक दिन भूपति ने, चारु से पूछा—चारु मन्दा को बुला लिया जाय तो कैसा हो? तुम एकदम अकेली पड़ गयी हो।

मन्दा का- नाम सुनते ही चारु जल उठी। कहा—नहीं, मन्दा की मुझे कोई जरूरत नहीं है।

भूपति हँस उठा। मन ही मन खुश हुआ। सोचने लगा—साध्वी स्त्रियाँ जहाँ सती धर्म में कुछ भी व्यतिक्रम देखती हैं, वहाँ उनका धीरज टूट जाता है।

विद्वेष के प्रथम धक्के को सँभालकर चारु ने सोचा,—मन्दा यहाँ रहती तो शायद, पतिदेव को, आमोद प्रमोद में

सत्तान्त्रे-

उजड़ा घा

रखती। पति, मुझसे जिस मानसिक सुख को पाने की इच्छा करते हैं, उस सुख को मैं किसी तरह भी नहीं दे रही हूँ—इस स्थिति को समझकर चारु बहुत ही कष्ट पारही थी। पति देवता सारी दुनिया की और सब बातें छोड़कर एकमात्र मुझसे ही अपने जीवन के सभी आनन्द खींच लेने की चेष्टा कर रहे हैं, इस एकाग्र चेष्टा को देखकर और अपने हृदय की दीनता समझकर चारु डर गयी। उसके मन में विचार आया कि इस तरह कितने दिन बटेंगे? वे और कोई दूसरा उपाय क्यों नहीं करते? दूसरा खलवार क्यों नहीं निकालते?

भूपति का मन बहलाने का अभ्यास अबतक कभी चारु को नहीं करना पड़ा था, दूसरी ओर भूपति ने चारु से किसी तरह की सेवा की माँग नहीं की थी, किसी सुख की प्रार्थना नहीं की थी। उसने चारु को पूरे तौर से अपनी जरूरतों के अनुकूल नहीं बनाया था, पर आज हठात् जब उसने अपने जीवन के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की अप्रकट-इच्छा चारु के सामने रख दी, ऐसी हालत में मानी चारु चक्कर में पड़ गयी, ऐसा लगा मानो कहीं भी उसे गोजने पर कोई चीज नहीं मिल रही है। भूपति क्या चाहता है, किन बातों से वह वृप्त होगा इस बात को चारु

ठीक तौर से नहीं जानती और जानने पर भी उसका ममाधान करना उसके लिये सहज नहीं था।

यदि भूपति धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करता तो सम्भवतः चारु को इतनी दिक्कतें न मालूम होतीं, किन्तु अचानक एक ही रात में दिवालिया होकर खाली भिक्षापात्र पसार देने से मानो वह घबड़ा उठी।

चारु ने कहा—अच्छा, मन्दा को बुला लो। वह रहेगी तो तुम्हारी देखभाल में विशेष सुविधा हो सकेगी।

भूपति ने हँसकर कहा—मेरी देखभाल की कोई जरूरत नहीं है।

भूपति ने उदास होकर सोचा—मैं बहुत ही नीरस आदमी हूँ, किसी हालत में भी चारु को सुखी नहीं कर सकता।

इन बातों को सोचकर भूपति ने साहित्य में दिल लगाया। जब कभी यार दोस्त घर-पर मिलने जुलने आते तो अश्चर्य में पड़कर देखते कि भूपति टैनीसन, गायरन, बकिंगहाम के उन्नयाम आदि लेकर व्यस्त है। भूपति का यह असामयिक काव्यानुशासन, देखकर यार दोस्त बहुत ही हँसी मजाक और परिहास करने लगे। भूपति ने हँसकर कहा—भाई, बाँस की झाड़ी में फूल भी लगते हैं परन्तु कब

उजड़ा घर

लगते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता ।

एक दिन शाम को शयन कक्ष में बड़ी बत्ती जलाकर शुरू शुरू में लज्जा से कुछ इधर उधर करते हुए भूपति ने थोड़ी देर बाद कहा—कुछ पढ़कर सुनाऊँ ?

चारु ने कहा—सुनाओ न ?

भूपति—क्या सुनाऊँ ?

चारु—जो तुम्हारी इच्छा ।

भूपति चारु का कुछ भी अधिक आग्रह न देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया । फिर साहस करके बोला—वेनीसन की कविता का कुछ अंश अनुवाद करके तुमको सुना दूँ ।

चारु ने कहा—सुनाओ ।

सच मिट्टी में मिल गया । सकोच और उत्साह की कमी से भूपति पढ़ते समय रुक जाने लगा, उपयुक्त शब्दों से अंग्रेजी का भाव न व्यक्त कर सका । चारु की शून्य दृष्टि देखकर समझ गया कि उसका मन नहीं लग रहा है । प्रदीप के प्रकाश में प्रकाशित छोटा सा कमरा, सन्ध्या समय का वह निभृत अवकाश, इच्छानुसार आनन्द और उत्साह से नहीं बीता ।

दो-एक बार और भी इस तरह की कोशिश और

गलती करके भूपति ने अन्त में खी के साथ साहित्य-चर्चा करना छोड़ दिया ।

१५

बहुत ज्यादा घोट लगने से जिस तरह नसें अशक्त हो जाती हैं और आरम्भ में दर्द मालूम नहीं होता, उसी तरह वियोग के आरम्भ में अमल के अभाव को मानों चारु भली भाँति न समझ सकी ।

अन्त में ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगा, त्यों-त्यों अमल के अभाव में सासारिक शून्यता का परिणाम भी क्रमशः बढ़ने लगा । इस भयङ्कर आघातकार से चारु हतबुद्धि सी हो गयी । निकुञ्ज वन से बाहर निकल कर वह अचानक उस मरुभूमि के बीच आ गयी है—जिसमें दिन पर दिन घले जा रहे हैं, पर मरुभूमि की सीमा बराबर बढ़ती ही चली जा रही है । इस मरुभूमि की बात वह पहले त्रिलकुश ही नहीं जानती थी ।

नाद टूटने पर अचानक उसके छाती में धड़कन पैदा हो जाती । उसे एकाएक स्मरण होता—अमल तो नहीं है । सबेरे जब बरामदे में पान लगाने बैठनी तो उसे यही याद

उजड़ा घर

लगते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता ।

एक दिन शाम को शयन कक्ष में बड़ी बत्ती जलाकर शुरू शुरू में लज्जा से कुछ इधर उधर करते हुए भूपति ने थोड़ी देर बाद कहा—कुछ पढ़कर सुनाऊँ ?

चारु ने कहा—सुनाओ न ?

भूपति—क्या सुनाऊँ ?

चारु—जो तुम्हारी इच्छा ।

भूपति चारु का कुछ भी अधिक आग्रह न देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गया । फिर साहस करके बोला—वेनीसन की कविता का कुछ अंश अनुवाद करके 'तुमको सुना दूँ ।

चारु ने कहा—सुनाओ ।

सब मिट्टी में मिल गया । सकोच और उत्साह की कमी से भूपति पढ़ते समय रुक जाने लगा, उपयुक्त शब्दों से अंग्रेजी का भाव न व्यक्त कर सका । चारु की शून्य दृष्टि देखकर समझ गया कि उसका मन नहीं लग रहा है । प्रदीप के प्रकाश से प्रकाशित छोटा सा कमरा, सन्ध्या समय का वह निभृत अवकाश, इच्छानुसार आनन्द और उत्साह से नहीं बीता ।

दो एक बार और भी इस तरह की-कोशिश और

गहती करके भूपति ने अन्त में-स्त्री के साथ साहित्य-चर्चा करना छोड़ दिया ।

१५

बहुत ज्यादा चोट लगने से जिस तरह नसें अशक्त हो जाती हैं और आरम्भ में दर्द मालूम नहीं होता, उसी तरह वियोग के आरम्भ में अमल के अभाव को मानों चारु भली भाँति न समझ सकी ।

अन्त में ज्यों-ज्यों दिन बीतने लगा, त्यों-त्यों अमल के अभाव में साप्ताहिक शून्यता का परिणाम भी क्रमशः बढ़ने लगा । इस भयङ्कर आविष्कार से चारु हनबुद्धि सी हो गयी । नेत्रुल्लसन से बाहर निकल कर वह अचानक उस मनुभूमि के बाँच धा गयी है—जिसमें दिन पर दिन चले जा रहे हैं, पर मनुभूमि की सीमा बराबर बढ़ती ही चली जा रही है । इस मनुभूमि की बात वह पहले प्रियकुश ही नहीं जानती थी । नौद टूटने पर अचानक उसके छानी में घड़कन पैदा हो जाती । उसे एकाएक स्मरण होता—अमल तो नहीं है, सपेरे जब बरामदे में पान लगाने बैठती तो उसे यही

‘उजड़ा घर

पड जाता कि अमल कहीं पीछे से न आता हो। कभी कभी अनमनी होकर अधिक पान लगा देती। फिर हठात उसे याद पड़ता—इतना पान क्या होगा—खाने वाला तो है नहीं। वगैरही भण्डार घर में पहुँचती, मन में तुरन्त ही यह खयाल पैदा होता कि अमल को जलपान नहीं करना है। मन में धैर्य न रहने के कारण अन्तपुर के आखीरी छोर पर जाते ही मानो याद आ जाता कि अमल कालेज से न आवेगा। कोई नई पुस्तक, नये लेख, नई कविता, नई समालोचना, नये कौतुक के लिए किसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। किसी के लिये कोई चीज सिलताई करने, कोई लेख लिखने या कोई शौकीन चीज खरीदकर रखने की जरूरत नहीं है।

अपने असहनीय कष्ट और मन की चंचलता से चारु स्वयं ही आश्चर्य में पड़ गयी। मानसिक पीडा के अनवरत कष्टों से उसके मन में भय पैदा हुआ। मन ही मन वह केवल यही प्रश्न करने लगी—क्यों?—इतना कष्ट क्यों हो रहा है? अमल मेरा कौन लगता है कि उसके लिए इतना कष्ट भोगूँ! मुझे क्या हो गया है? इतने दिनों के बाद यह कौन सी बला मेरे सिर पर आ गयी। नौकर चान्दर, रास्ते के मजदूर तो निश्चिन्त होकर घूम रहे हैं,

उजड़ा घा

मेरी हालत ऐसी क्यों हो गयी ? हा भगवान् मुझे ऐसी विपत्ति में क्यों गिरा दिया ?

मन ही मन बराबर केवल इमी तरह का प्रश्न करती रहती । उसे आश्चर्य भी मालूम होता, परन्तु दुःख का कुछ भी मूल कारण न मालूम होता । अमल की स्मृति में उसका मन अकारण इतना भर उठा है कि कहीं भी भागकर चले जाने की जगह तक उसे नहीं दिखलायी देती ।

अमल की स्मृति के आक्रमण से भूपति उसकी क्या रक्षा करता ?—वह तो स्वयं विरह-पीड़ित था, अमल की बातों को याद कर ।

अन्न में चारु एकदम चिन्ता मुक्त होने का निश्चय कर, मनस्तापों से युद्ध कर शान्त और गम्भीर हो गयी । अमल की स्मृति को बहुत ही यत्न के साथ उसने अपने हृदय मन्दिर में स्थापित कर लिया ।

धीरे धीरे वह ऐसी स्थिति पर पहुँच गयी कि एकाम्रचित्त से अमल का ध्यान करना उसके लिए दैनिक कार्य हो गया—मानों वही स्मृति उसके जीवन के श्रेष्ठ गौरव की सामग्री बन गयी हो ।

घरेलू कामों से अवकाश मिलाने पर उसने एक समय नेत्र फेर लिया । उस समय अकेली कमरे का किचाइ बन्द

उजड़ा घर

करके एक एक कर बहुत बारीकी से वह अमल के साथ हुई अपने जीवन की प्रत्येक घटना को याद करती। विस्तर पर लेटकर बार-बार पुकारती, अमल, अमल ! समुद्र पार से मानों आवाज आती, भाभी, क्या कहती हो भाभी, क्या ? चारु भीगी हुई आँखें बन्द कर कहती—अमल, तुम नाराज होकर क्यों चले गये ? मैंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया। तुम यदि अच्छी तरह प्रसन्नता के साथ विदाई लेकर जाते तो मुझे इतना दुःख न होता। अमल के सामने रहने पर जिस तरह बातचीत होती थी, ठीक वही तरह चारु शब्दों का उच्चारण करके बातचीत करती। अमल ! मैं तुम्हें एक दिन के लिए भी नहीं भूली। एक दिन के लिए भी नहीं। मेरे जीवन के सभी श्रेष्ठ पदार्थ को तुमने ही फूलने फलने का मौका दिया है। अपने जीवन के सार भाग से मैं प्रति दिन तुम्हारी पूजा करूँगी।

इस प्रकार चारु ने अपने सभी गृहस्थी के कार्यों और अपने सब कर्तव्यों के नीचे की तह में, सुरग खोदकर उस प्रकाशहीन निस्तब्ध अन्धकार के बीच, अश्रुमालाओं से सुगन्धित एक गुप्त शोक मन्दिर निर्माण करके रख दिया। यहाँ उसके पति या दुनियों के और किसी आदमी का कुछ भी अधिकार नहीं रहा। वह स्थान जितना ही गुप्त है,

उजड़ा घर

एक दिन भूपति ने चारु से प्रेम भरे शब्दों में कहा—
 चारु ! तुमने आजकल लिखना पढ़ना एकदम क्यों छोड़
 दिया है ?

चारु ने कहा—मैं बहुत बड़ी लेखिका हो गयी हूँ न !

भूपति—सच्ची बात कहता हूँ । आजकल के लेखकों में मैंने
 तुम्हारी शैली की तरह अच्छी शैली किसी की भी नहीं देखी ।
 विश्वबन्धु' पं. ने अपना जो मन्तव्य दिया था, मेरा भी ठीक
 वही मत है ।

चारु—अ ! रुको तो सही ।

भूपति—“यह देख ही लो न” कहकर भूपति सरोरुह की
 एक प्रति निकालकर, चारु और अमल की लेखनशैली से तुलना
 करने लगा । चारु का चेहरा लाल हो उठा और उसने मट-
 पट भूपति के हाथ से पत्र को छीनकर अपने अश्रुल के बीच
 ढँक लिया ।

भूपति मन में सोचने लगा—लिखने के काम में एक साथी
 की जरूरत पड़ती है । साथी के बिना मन की भावनाएँ नहीं
 निकलती । मैं समझ गया । अब उपाय यही है कि मैं भी लिखने
 की आदत बढाऊँ । अभ्यास बढा लेने पर धीरे धीरे चारु का
 भी लिखने में उरसाह बढ जायगा ।

भूपति गुप्तरूप से खाता लेकर बैठ जाता और लिखने
 का अभ्यास करने लगा ।—कोप देखकर, घार घार काट-

उजड़ा घर

जाती तो उन लोगों के प्रति उचित रीति से आतिथ्य दिखलाने में वह तिलमात्र भी चुट्टि न होने देती। इस प्रकार सभी कामकाज पूरा करके भूपति का उच्छिष्ट प्रसाद खाकर चारू का दिन शान्तिपूर्वक बीत जाता।

इस सेवा और यत्न की बदौलत भूपति के दूढ़े हुए स्वास्थ्य और बिगड़े हुए शारीरिक-सौन्दर्य में बहुत अधिक सुधार हो गया। मानो उसे नवयौवन की प्राप्ति हो गयी हो और साथ ही ऐसा मालूम हुआ मानों पहले उसका विवाह ही नहीं हुआ था, इतने दिनों के बाद हुआ है। हास्य-परिहास और साज-सजावट आदि से विकसित होकर भूपति ने अपने मन को सारी दुर्भावनाओं को मन के एक काने में ठेलकर रख दिया। बीमारी से उठने पर जिस प्रकार भूख की ज्वाला बढ़ जाती है, शरीर में योगशक्ति के विकास को जिस प्रकार सचेत भाव से अनुभव किया जाता है, इतने दिनों के बाद भूपति के मन में ठीक उसी तरह का एक अपूर्व और प्रबल भावावेश का सञ्चार हो गया। मित्रों से—यहाँ तक कि चारू से छिपाकर भूपति केवल गुप्त रूप से कविता पढ़ने लगा। उसने मन ही मन कहा—अखबार बन्द हो जाने पर, बहुत कष्ट सह चुकने पर, इतने दिनों के बाद मैं अपनी स्त्री का आविष्कार कर सका हूँ।

उजड़ा घर

एक दिन भूपति ने चारु से प्रेम भरे शब्दों में कहा—
चारु ! तुमने आजकल लिखना पढ़ना एकदम क्यों छोड़
दिया है ?

चारु ने कहा—मैं बहुत बड़ी लेखिका हो गयी हूँ न ।

भूपति—सचची बात कहता हूँ । आजकल के लेखकों में मैंने
तुम्हारी शैली की तरह अच्छी शैली किसी की भी नहीं देखी ।
'विश्वमन्धु' प । ने अपना जो मन्तव्य दिया था, मेरा भी ठीक
वही मत है ।

चारु—अ ! रुको तो सही ।

भूपति—“यह देख ही लो न” कहकर भूपति सरोरुह की
एक प्रति निकालकर, चारु और अमल की लेखनशैली से तुलना
करने लगा । चारु का चेहरा लाल हो उठा और उसने झट-
पट भूपति के हाथ से पत्र को छीनकर अपने अञ्जल के बीच
ढँक लिया ।

भूपति मन में सोचने लगा—लिखने के काम में एक साथी
की जरूरत पड़ती है । साथी के बिना मन की भावनाएँ नहीं
निकलती । मैं समझ गया । अब उपाय यही है कि मैं भी लिखने
की धादत बढ़ाऊँ । अभ्यास बढ़ा लेने पर धीरे धीरे चारु का
भी लिखने में रुसाह बढ़ जायगा ।

भूपति गुप्तरूप से खाता लेकर बैठ जाता और लिखने
का अभ्यास करने लगा ।—कोष देखकर, धार धार काट

उजड़ा घर

कर—फिर लिख लिखकर, भूपति बेकारी का समय व्यतीत करने लगा। इतने कष्ट और अपार मेहनत से लिखी गयीं उन रचनाओं के प्रति उसके मन में धीरे धीरे विश्वास और ममता की भावना जाग उठी।

अन्त में एक दिन भूपति ने एक उपाय सोचा। अपने लेख को दूसरे से नकल कराकर उसने अपने स्त्री को पढ़ने के लिये दिया। कहा—मेरे एक मित्र ने अभी लिखना शुरू किया है। मैं तो कुछ भी नहीं समझता कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं, पर तुम्हारे पास लाने का मतलब यह है कि तुम इसे एक बार पढ़कर देखो कि यह चीज कैसी हुई है ?

खाता कपट चारु के हाथ में रखकर भूपति तुरन्त कमरे से बाहर चला गया। सरल भूपति का यह कपटपूर्ण व्यवहार समझने में चारु को देर न लगी।

चारु उसे आदि से अन्त तक ध्यानपूर्वक पढ़ गयी। लेख का विषय और उसकी शैली देखकर वह हस पड़ी। उसके मन में गम्भीर विचार उठने लगे। सोचा—पतिभक्ति में इस तरह तत्पर हूँ, भक्ति प्रदर्शित करने के लिये बराबर कोशिश करती रहती हूँ, फिर भी पति की यह कार्यप्रणाली किस मतलब से है ?

उजड़ा घर

हाय ! चारु अपनी पति-भक्ति की इतनी तैयारी कर रही है। और वह क्यों लड़कपन करके पूजा के अर्घ्य को इधर-उधर बिखेर रहा है। चारु से प्रशंसित होने या वाह-वाही लूटने की उसकी ऐसी चेष्टा क्यों है ? यदि वह कुछ भी न करता और चारु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वदा प्रयत्नशील न बना रहता, तो भी पति-पूजा में चारु को वह अन्यमनस्क न देखता। चारु हृदय से यही चाहती है कि भूपति किसी हालत में भी अपने को उससे छोटा या कम न समझे।

चारु ने राते को मोड़कर रस दिया। तकिये पर टेक कर सुदूर निगाह दौड़ाकर, वह बहुत देर तक सोचती रही—अमल भी तो कभी कभी नये लेख लाकर उसे पढ़ने के लिये देता था ?

सन्ध्या समय शयन कक्ष के सामने वाले बरामदे में फूलों के निरीक्षण करने में व्यस्त उत्सुक भूपति को, चारु से कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ।

चारु ने मौन रहना अनुचित समझकर गम्भीर भाव से पूछा—“क्यों जी, क्या तुम्हारे मित्र का यह पहला निबन्ध है ?”

भूपति ने कहा—हाँ।

उजड़ा घर

चारु—यह तो बहुत अच्छा हुआ है। देखने से ऐसा माल नहीं होता कि पहला लेख है।

भूपति प्रसन्न होकर सोचने लगा—मैंने लेख तो मित्र व कहकर चारु को दिया था, अब उसे अपने नाम से कैसे प्रकाशित किया जा सकता है ?

भूपति का उत्साह बढ़ गया। वह बराबर लिखने लगा बहुत तेजी से खाता के बाद खाता लिखने में व्यस्त रहने लगा और फिर नाम प्रकाशित होने में भी देर न लगी।

१७

चारु इस बात का बराबर पता लगाती रहती कि विलायत से चिट्ठी आने का दिन कब है। पहले पहल अदन से भूपति के नाम एक पत्र आया। उस पत्र में अमल ने भाभी को प्रणाम निवेदन किया था। फिर स्वेज नहर से भूपति को अमल का दूसरा पत्र मिला। उसमें भी भाभी को प्रणाम लिखा हुआ था। फिर तीमरी चिट्ठी माल्टा से रवाना की गयी थी और उसमें भी अन्त में पुनश्च—लिखकर अमल ने भाभी को प्रणाम की सूचना दी थी।

उजडा घर

चारु के पास अमल की एक भी चिट्ठी नहीं आयी। भूपति के पास जो चिट्ठियाँ आयी थीं, उन्हें माँगकर चारु ने बहुत गौर से इधर उधर उलटकर देखा, परन्तु आदि से अन्त तक पढ़ जाने पर 'प्रणाम' के अतिरिक्त उसके धारे में कहीं पर एक अक्षर भी नहीं दिखाई पड़ा। उसके सम्बन्ध में किसी तरह का जिक्र कहीं भी नहीं मिला।

इधर कुछ दिनों से चारु ने अपने मन को सयत बनाकर शान्त बना लिया था और शान्त विपाद की निर्मल चन्द्रातप छाया में आश्रय ले चुकी थी। परन्तु पत्रों को पढ़कर और अपने प्रति अमल की ऐसी उपेक्षा का भाव देखकर उसका शान्त मनोभाव फिर बदल गया और सब बन्धन छिन्न हो गया। हृदय में पुन घड़कन शुरू हुई, हत-पिएह मानो टूटने लगा। गार्हस्थ्य जीवन की वर्तव्य स्थिति के बीच फिर भूकम्प के धक्के लगने लगे।

एक दिन की विचित्र घटना देखकर भूपति चकित हो गया। आधीरात बीच चुकी थी। अचानक नींद टूट जाने पर भूपति ने देखा कि चारु पलङ्ग पर नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर खोजने लगा। आँगन में जाकर देखा कि चारु दक्षिण तरफ के कमरे में खिड़की के पास चुपचाप बैठी हुई है। भूपति को देखकर चारु झटपटः

एक सौ ग्यारह

उजड़ा घर

ठठकर खड़ी हो गयी। कहा—उस कमरे में बेहद गर्म मालूम हो रही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गयी। यहाँ अच्छी हवा लग रही है।

पत्नीको आराम से रखने के लिए भूपति बराबर प्रयत्नशील रहता था। चद्विग्न होकर उसने शयनकक्ष में पलङ्ग पर पद्मा खिचवाने का बन्दोबस्त कर दिया और इस घात का ख्याल रखने लगा कि कहीं ऐसी त्रुटि न हो, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाय। भूपति की ऐसी तत्परता देखकर चारू मुसकुराकर कहती—मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, तुम मूठमूठ क्यों घबड़ाते रहते हो। इस मुसकुराहट और हँसी को प्रफुटित करने में उसे अपनी छाती को कड़ी करके पूरी शक्ति लगा देने की जरूरत पड़ती थी।

अमल यथासमय विलायत पहुँच गया। चारू के मन में पहले यह विचार आया था कि रास्ते में शायद उसे स्वतन्त्र रूप से पत्र लिखने का मौका नहीं मिला। नियत स्थान पर पहुँच चुकने पर शायद विस्तृत पत्र लिखकर भेजेगा। किन्तु वह विस्तृत-पत्र नहीं आया। प्रतीक्षा विफल हुई। ;

प्रत्येक 'मेल' आनेके दिन चारू अपने सभी कामों और घरेलू घन्धों को करती हुई भीतर ही भीतर मन में

उजड़ा घर

छटपटाती रहती थी। कहीं भूपति यह न कह दे कि तुम्हारे नाम का कोई पत्र नहीं है, इस शका से चारु उससे इसका जिक्र ही नहीं करती थी।

ऐसे ही समय में एक दिन डाक आने के दिन भूपति मुसकुराता हुआ धीरे धीरे आकर बोला—एक चीज है, देखोगी ?

चारु व्यस्त थी, पर सुनकर चकितभाव से उसने पूछा—
कहाँ है दिस्त्राओ ?

भूपति ने थोड़ा परिहास करने के विचार से नहीं दिखा-
लाया। चारु अधीर हो उठी। उसने उठकर भूपति की चादर के बीच से वाञ्छित वस्तु को छोन लेने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, सबेरे से ही मेरे मन में यह विचार बार बार आ रहा है कि आज जरूर ही मेरी चिट्ठी आवेगी—यह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता।

चारु को ऐसी उत्सुकता से भूपति की परिहास-स्पृहा लगातार बढ़ती गयी—वह चारु से बचता हुआ पलंग के चारों तरफ घूमने लगा।

तब अत्यन्त ऊबकर चारु पलंग पर बैठ गयी। उसकी आँखें आँसू से भर उठीं।

चारु के अत्यन्त आग्रह से भूपति ने चादर के अन्दर

उजड़ा घर

बैठकर खड़ी हो गयी। कहा—उस कमरे में बेहद गर्मी मालूम हो रही है, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गयी। यहाँ अच्छी हवा लग रही है।

पत्नीको आराम से रखने के लिए भूपति बराबर प्रयत्नशील रहता था। उद्विग्न होकर उसने शयनकक्ष में पलङ्ग पर पद्मा खिचवाने का बन्दोबस्त कर दिया और इस घात का ख्याल रखने लगा कि कहीं ऐसी त्रुटि न हो, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाय। भूपति की ऐसी तत्परता देखकर चारु मुसकुराकर कहती—मैं बहुत अच्छी तरह हूँ, तुम मूठमूठ क्यों घबड़ाते रहते हो। इस मुसकुराहट और हँसी को प्रभुफुटित करने में उसे अपनी छाती को कड़ी करके पूरी शक्ति लगा देने की जरूरत पड़ती थी।

अमल दथासमय बिलायत पहुँच गया। चारु के मन में पहले यह विचार आया था कि रास्ते में शायद उसे स्वतन्त्र रूप से पत्र लिखने का मौका नहीं मिला। नियत स्थान पर पहुँच चुकने पर शायद विस्तृत पत्र लिखकर भेजेगा। किन्तु वह विस्तृत-पत्र नहीं आया। प्रतीक्षा विफल हुई। ;

प्रत्येक 'मेल' आनेके दिन - चारु अपने सभी कामों और घरेलू घन्धों को करती हुई भीतर ही भीतर मन में

उजड़ा घर

छटपटाती रहती थी। कहीं भूपति यह न कह दे कि तुम्हारे नाम का कोई पत्र नहीं है, इस शका से चारु उससे इसका जिक्र ही नहीं करती थी।

ऐसे ही समय में एक दिन डाक आने के दिन भूपति मुसकुराता हुआ धीरे धीरे आकर बोला—एक चीज है, देखोगी ?

चारु व्यस्त थी, पर सुनकर चकितभाव से उसने पूछा—
कहाँ है दिजाओ ?

भूपति ने थोड़ा परिहास करने के विचार से नहीं दिखलाया। चारु अधीर हो उठी। उसने उठकर भूपति की चादर के बीच से वाञ्छित वस्तु को छीन लेने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा, सवेरे से ही मेरे मन में यह विचार बार बार आ रहा है कि आज जरूर ही मेरी चिट्ठी आवेगी—यह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता।

चारु को ऐसी उत्सुकता से भूपति की परिहास-स्पृहा लगातार घबटती गयी—वह चारु से बचता हुआ पलंग के चारों तरफ घूमने लगा।

तब अत्यन्त ऊबकर चारु पलंग पर बैठ गयी। उसकी आँखें आँसू से भर उठीं।

चारु के अत्यन्त आग्रह से भूपति ने चादर के अन्दर

एक सी तैरह

से बहुत उत्सुकता के साथ एक खाता निकाला, जिसमें सनेके रचित निबन्ध भरे पड़े थे।

चारु की गोद में खाता रखकर उसने कहा—रजें मत हो, यह लो।

१८

यद्यपि अमल ने भूपति को पहले ही बतला दिया था कि पढाई के मामले में रहने से बहुत दिनों तक उसे पत्र लिखने का समय न मिलेगा, तथापि दो एक ढाक, उसके पत्र बिना खाली जाते ही चारु को संसार कण्टकाकीर्ण सा प्रतीत होने लगा।

सन्ध्या समय कुछ बातचीत के सिलसिले में अत्यन्त उदासीनता के साथ शान्त स्वर में अपने कहा—अच्छा देखो, क्या बिलायत एक तार दरियाफ्त करना उचित न होगा कि इन हालत में है ?

भूपति ने कहा—दो सप्ताह पूर्व जिसमें उसने लिखा था कि इन दिनों न्यस्त हूँ।

उजड़ा घर

—चारु ओ ! तब तो कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी, विदेश में पढ़ा हुआ है, कहीं बीमार न हो गया हो, क्या ठिकाना है ?

भूपति—नहीं, यदि ऐसी कोई बात होती तो जरूर खबर मिलती। इसके अलावा तार भेजने में भी तो कम खर्च नहीं है।

—चारु—क्या ऐसी बात है ? मैं समझती थी कि तार भेजने में दो एक रुपये से अधिक खर्च न लगेगा।

भूपति—क्या कहती हो, प्राय एक सौ रुपये का वका है।

चारु—तब तो बात ही दूसरी है।

दो एक दिन घीत जाने पर चारु ने भूपति से कहा—मेरी दिन इन दिनों चु चुड़ा में है। क्या तुम आज वहाँ जाकर एक बार उसका समाचार ला सकते हो ?

भूपति—क्यों ? क्या उनको कोई रोग हो गया है ?

—चारु—नहीं, कोई रोग नहीं। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे जाने से वे लोग कितना प्रसन्न होते हैं।

चारु के अनुरोध से भूपति एक बग्गी पर सवार कर हवाई स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में बीसगायों का एक गाँव आ पहुँचा और उसकी बग्गी रुक गयी।

उजड़ा घर

ऐसे ही समय में परिचित तार पहुँचाने वाले प्यून से झुलाकात हो गयी। भूपति को देखकर उसने झटपट उसके हाथ में एक सार रख दिया। इङ्गलैण्ड का तार देखते ही भूपति बहुत खर गया। सोचा, शायद अमल बीमार पड़ गया है। सतारते सतारते उसने लिफाफा खोलकर पढा—मैं अच्छी तरह हूँ।

इसका क्या मतलब है? जाँच करने पर मालूम हुआ कि यह तो प्री-पेड टेलीग्राम का जबाब है।

हमड़ा जाना रुक गया। बगी को लौटाने का हुक्म देकर भूपति घर पहुँचा और स्त्री के हाथ पर टेलीग्राम रख दिया। भूपति के हाथ में टेलीग्राम देखते ही चारू का मुँह फीका और पीला पड़ गया।

भूपति ने पत्नी से कहा—मैं इसका कुछ भी मतलब नहीं समझ रहा हूँ। चारू ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शोज करने पर भूपति इसका अर्थ समझ गया। चारू ने आपना गहना बन्धक रखकर कर्ज में रुपये लिये और इसी धरतीग्राम भेजा था।

उजड़ा घर

गुप्तरूप से गहना बन्धक रखना और कर्ज लेकर तार भेजना यह तो कभी अच्छा काम नहीं कहा जा सकता ।

चारु की इस गुप्त कार्यवाही से भूपति का मन खिन्न हो गया । रह रहकर बार बार यही प्रश्न आने लगा कि चारु ने ऐसा अपराध क्यों किया ? एक तरह का अस्पष्ट सन्देह अलक्ष्यरूप से उसके हृदय को बेधने लगा । उस सन्देह को प्रत्यक्षरूप से देखने की उसकी विल्कुल ही इच्छा नहीं थी, इसलिये उसने इसे भूल जाने की कोशिश की, किन्तु किसी उपाय से भी उसके मन से व्यथा दूर नहीं हुई ।

१६

अमल पूर्णरूप से स्वस्थ है, फिर भी वह पत्र नहीं लिखता । एकदम ही ऐसा कठोर कैसे बन गया ? और ऐसा कष्टदायक विच्छेद कैसे हो गया ? मामने जाकर इस प्रश्न का उत्तर माँगने की इच्छा होती है, किन्तु यह तो सम्भव नहीं है । बीच में इतना बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है । उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं है । निष्ठुर विच्छेद, निरुपाय

उजड़ा घर

विच्छेद, सभी प्रश्नों और सभी प्रतिकारों का अतीत विच्छेद।

चारु की अवस्था दयनीय हो चली। वह अपने को खड़ी रखने में असमर्थ हो गयी। घर के काम व्यो के व्यो पड़े रह जाते हैं, उनको पूरा करने में तथीयत नहीं लगती, सब बातों में गलतियाँ होती हैं, कोई काम सुसम्पन्न नहीं होता। नौबर-चाकर, दास-दासियाँ मनमाने तौर से चोरी करते रहते हैं। उसकी दयनीय दशा को देखकर लोग तरह तरह की काना-फूसी करने लगे, पर इन सभी बातों को जानते हुए भी उसे होश नहीं होता।

हठात् जब तब चारु चौंककर उठ जाती, स्वयं बातचीत करती और रोने लग जाती। अमल का नाम सुनते उसका मुँह फीका हो जाता।

अन्त में भूपति ने भी सब कुछ देख लिया और क्षणभर के लिए भी जो विचार उसके मरिच्छक में कभी नहीं आया था उसे भी लाना पड़ा। उसके लिए ससारे एकदम वृद्ध, शुष्क और जीर्ण हो गया।

बीच कुछ दिनों तक आनन्द के उन्मेष में भूपति अन्धा हो गया था। अब वह कुछ दिनों की स्मृति, उसको लब्धित करने लगी। जो अनभिज्ञ बनकर जाँह नहीं।

उजड़ा धार -

पहचानता, उसे क्या नकली पत्थर दिखाकर इस तरह वञ्चित किया जा सकता है ?

एक एक करके चारु के सभी आचरण, वनावटी धार आदि भूपति को याद पड़ने लगे। चारु के जिम वर्ताव से, जिन बातों से या आदर धार से भूपति भूलकर फूल उठा था, वे सभी एक एक करके स्मृतिपट में पहुँचकर 'मूढ मूढ, मूढ' कहकर उसे बेत मारने लगे।

अन्त में बहुत कष्ट, बहुत परिश्रम और, यत्न के साथ लिखी अपनी रचनाओं की बात उसे याद पड़ी। भूपति के अन्तर्हृदय में यह भाव एकाएक जाग उठा कि धरणी दो सख्तों में विदीर्ण हो जाय तो अच्छा हो। अकुश से भगाये जानेवाले की तरह तेजी से पद संचालन करता हुआ भूपति चारु के पास पहुँचकर पूछा—मेरे लिखे हुए वे सब लेख कहीं हैं ?

चारु ने कहा—मेरे पास ही तो हैं !

भूपति ने कहा—उन सबको लाकर दे दो !

चारु उस समय भूपति के लिये कचौड़ी पका रही थी, कड़ाही गर्म थी। कहा—क्या तुम्हें अभी जरूरत है ?

भूपति ने कहा—हाँ, अभी तुरन्त चाहिये। चारु ने कड़ाही चूल्हे से छतार कर रख दी और आलमारी से रागा तथा सब कागजात ले आयी।

उजड़ा घर

भूपति का धैर्य टूट चुका था। उसने मटपट चारु के हाथ से सब छीनकर चूल्हे के अन्दर फेंक दिया।

चारु घबड़ा उठी और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हुए उसने कहा—यह तुमने क्या किया ?

भूपति ने उसका हाथ पकड़ कर दबा रखा और गरजता हुआ बोला—बस करो, निकालने की जरूरत नहीं है।

चारु आश्चर्य में पड़कर खड़ी रह गयी। क्षणभर में सभी लेख आग में जलकर खाक हो गये।

चारु सब कुछ समझ गयी। लम्बी साँस खींचकर चुप रही। कचौड़ी पकाने का काम अधूरा छोड़कर उस स्थान से हट गयी।

भूपति की इच्छा नहीं थी कि खाता चारु के सामने ही नष्ट कर दिया जाय। किन्तु ठीक सामने ही आग जल रही थी, देखकर न मालूम किस तरह खून उसकी नसों में उमड़ पड़ा। भूपति अपने को रोक न सका। वज्रना करने वाली के सामने ही प्रवञ्चित वेवकूफ की सारी चेष्टाओं को उसने आग में फेंक दिया।

सभी राख में परिणत हो जाने पर जब भूपति की आकस्मिक उदरहता शान्त हो गयी, तब अपने अपराध का

उजड़ा घर

बोझ होती हुई जिस गम्भीर विपाद के साथ चुपचाप तिर मुकाये चारु वहाँ से चली गयी थी, वह दृश्य भूपति के मन में जाग उठा। सामने गौर से देखने पर मालूम हुआ कि जिस चीज को वह विशेष रूप से पसन्द करता है, उने ही बहुत यत्न से वह तैयार कर रही थी।

भूपति वरामंहे की रेलिंग पर टेक कर खड़ा हो गया। मन ही मन सोचने लगा—मेरे लिये, मेरे नाम पर, चारु इतनी अटूट मिहनत, इतनी कोशिश, इतनी प्रवञ्चना कर रही है, इससे दयनीय—शोचनीय घात सारी दुनियाँ में और क्या हो सकती है? ये सभी प्रवञ्चनार्थ, इस ठगिनी की घृणित छलनामात्र तो नहीं है। इन छलनाओं के लिए सतहृदय, सत यन्त्रणा चारगुनी बढाकर, अभागिनी का इतने दिनों तक प्रति क्षण अपने हृत्पिण्ड से रक्त पीस पीस कर बाहर निकालना बड़ा है। भूपति ने मन ही मन सोचा—हाय अशक्ता, हाय अशक्ती! कोई जरूरत नहीं थी मुझे इन सबकी, कुछ भी जरूरत नहीं थी। इतने दिनों तक मैंने प्रेम पाकर भी नहीं मिया था, प्रेम क्या है यह मैं मालूम भी न कर सका था। मैं अखबार लिस लिखकर और प्रूफ देखकर ही सन्तुष्ट था, उस समय आनन्द से बीतता जा रहा था—मेरे लिए इतना मेहनत की क्या जरूरत थी?

उजड़ा घर

वह और भी गम्भीर भाव से सोचने लगा। तब उसने अपने जीवन को चारु के जीवन से दूर हटाकर, डाक्टर जिस तरह भयानक रोग से ग्रस्त रोगी को देखता है— ठीक उसी तरह भूपति ने, बहुत दूर से सम्बन्धहीन व्यक्ति को जिस प्रकार देखा जाता है वसी प्रकार चारु को देखा। उस क्षीणशक्ति नारी का हृदय क्या प्रबल ससार द्वारा चारों ओर से आक्रान्त है? कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी सगिनी नहीं है, जिससे वह अपने हृदय की सभी घातें व्यक्त कर सके। ऐसी कोई बात नहीं है जो पतलाई जाय, ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ सारा हृदय रोलकर वह हाहाकार कर सके—फिर भी वह इस अप्रकट, अनिवार्य, दिन पर दिन बढ़नेवाले दुःखभार को ढोती हुई, बहुत ही सीधे सादे व्यक्ति की तरह, अपनी सुशीला पड़ोसियों की तरह प्रतिदिन के घरेलू कामों को करती जा रही है।

भूपति अपने शयनगृह में गया। वहाँ उसने देखा कि चारु रिपड़की के पास खड़ी है और लोहे को छड़ पकड़कर, अश्रुहीन अनिमेष दृष्टि से बाहर की तरफ गौर से देख रही है। धीरे धीरे भूपति उसके पास जाकर खड़ा हो गया— कुछ भी नहीं बोला, केवल उसके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया।

उजड़ा घर

२०

मित्रों ने, सम्बन्धियों ने भूपति से पूछा—बात क्या है, इतने व्यस्त क्यों हो ?

भूपति ने कहा—अखबार—

एक मित्र—फिर अखबार की चर्चा ? क्या मकान आदि सभी अखबार में लपेटकर गङ्गाजी के जल में फेंकने की इच्छा है ?

भूपति—नहीं, अब अपना अखबार न निकलेगा ।

मित्र—तब ?

भूपति—मैसूर में एक अखबार निकलने जा रहा है, मुझे अधिकारियों ने सम्पादक नियुक्त किया है ।

मित्र—घर द्वार छोड़कर एकदम इतनी दूर मैसूर चले जाओगे ? चारु को भी साथ ले जा रहे हो ?

भूपति—नहीं, मामा सपरिवार यहाँ आकर रहेंगे ।

मित्र—देख रहा हूँ किसी तरह भी तुम्हारा सम्पादकीय नशा नहीं टूटा ।

भूपति—प्रत्येक मनुष्य को एक न एक नशा जरूर रहना चाहिये ।

भूपति के जाने का समय आ गया तो चारु ने पूछा—

एकसौ तेईस

उजड़ा घर

कब आओगे ?

भूपति—यदि तुमको उदास मालूम होने लगे, अकेली रहने में अच्छा न लगे तो मेरे पास पत्र लिख भोजना, मैं आ जाऊँगा।

यह कह कर बिदा होकर भूपति जब मकान के सदर दरवाजे पर पहुँचा तब हठात् दौड़ती हुई चारु उसके पास पहुँची और हाथ पकड़कर जोरों से दबाकर बोली—मुझे भी अपने साथ ले चलो ! मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ।

भूपति रुककर खड़ा हो गया और चारु के मुँह की तरफ देखने लगा। चारु का हाथ शिथिल पड़ जाने से भूपति का हाथ छूट गया। भूपति चारु के पास से हटकर बरामदे में आकर खड़ा हो गया।

भूपति ने समझ लिया, अमल के वियोग से और उस वियोग की स्मृति से जो मकान घिरा हुआ है, जिसके चारो ओर उस वियोग का दावानल जल रहा है, उस मकान को छोड़कर चारु भाग जाना चाहती है। किन्तु मेरी बात और मेरी मानसिक स्थिति को इसने एक धार भी नहीं सोचा ! मैं कहीं भागकर जाऊँ। जो स्त्री निरन्तर अन्य पुरुष का ध्यान कर रही है, विदेश जाकर भी उसे भूल जाने का समय न पाऊँगा। और स्वजनविहीन प्रवास में प्रति दिन

उजड़ा घर

उसके साथ रहना पड़ेगा। सारा दिन परिश्रम करके शाम को जब घर लौटूँगा, तब निस्तब्ध—शोकप्रस्त नारी के साथ वह सन्ध्या तथा रात्रि कितनी भयानक और शोकदायक हो उठेगी। जिसके हृदय के अन्दर अन्य पुरुष का चिन्तनभार मौजूद है, उसे अपने कलेजे-के पास पकड़ रखने में मैं कितने दिनों तक समर्थ हो सकूँगा और कितने वर्षों तक मुझे इस हालत में जीवित रहना पड़ेगा। जो आश्रयहीन होकर टूट फूट गया है, उसकी टूटी फूटी ईंटों को फेंककर न जा सकूँगा, धन्वे पर रखकर कहाँ जाऊँगा? वहाँ ही क्या इन सबको भी ढोकर ले जाना पड़ेगा।

भूपति ने चारु के पास आकर कहा—नहीं, यह काम मैं न कर सकूँगा।

क्षणभर में चारु का सारा रक्त सूख गया, मुँह फीके कागज की तरह हो गया। चारु शूट्टी से पलग पकड़कर आवाकू रह गयी।

उसी समय तुरन्त ही भूपति ने फिर कहा—चलो चारु, मेरे साथ चलो।

चारु ने कहा—नहीं रहने दो, जरूरत नहीं है।

समाप्त

एक सी पच्चीस

कुशवाहा 'कान्त' रचित

शत प्रति-शत रोचक और मनोरञ्जक

उपन्यास

- ३॥) आहुति ।
- ३॥) भँवरा
- ४) मजिल
- ३॥) लवंग ।
- २॥) निर्मोही (-यत्रस्थ)
- २॥) पागल
- २॥) कु कुम
- २॥) बसेरा
- २॥) जलन
- २॥) -अकेला
- २॥) इशारा

इनमें से कोई भी पुस्तक हाथ में आने-पर, आप उसे बिना समाप्त किये न छोड़ सकेंगे ।

चौधरी एण्ड-सन्स, बनारस ।

माला की प्रकाशित पुस्तकें

ऐतिहासिक:—

- १॥) वीर दुर्गादास राठौर ॥॥) मेरी अथीसीनिया यात्रा
३॥) क्लॉसी की रानी २) मेरी काश्मीर यात्रा
२) प्रतापी आल्हा और ऊदल १॥॥) छत्ररति शिवाजी
१॥॥) महाराणा प्रताप २) मेवाड़ का इतिहास
१॥॥) अमरसिंह राठौर

धार्मिक:—

- १॥) आस्तिक विचार ८) उपनिषत्समुच्चय
१) शुद्धि सनातन है १॥) आस्तिक विचार

उपन्यास:—

- १॥) बघन २॥) प्यासी तलवार
२॥) दीपदान ३॥) जवानी का नशा
१॥) मन की पीर १॥॥) गोविन्दराम
३॥) घर की लाज १॥॥) कुसुम सम्रह
२) वासन्ती १॥॥) हाटल में खुन
१॥) गरीब १॥॥) साहसी राजपूत
४) रोटी १) हाहाकार
२॥॥) अजेयतारा ३॥) अघकार
१) ठोकर २) मनोरमा
३) नर और नारी २॥॥) प्रेम के अर्थ

- १॥) राजपूत नन्दिनी २॥) प्यासी धॉखें
 १॥) उजड़ा घर १॥) सोने का बाल
 २) भाग्यहीनो की बस्ती

हास्यरसः—

- २) महाकवि सॉड १॥) कुंकुड़ू कूँ
 १॥) पानी पाडे १) खरीखोटी
 १॥) टालमटोल १॥) छड़ी बनाम सोंटा
 १॥) चूनाघाटी १॥) गुरुघंताल

युवकोपयोगीः—

- २) सरल सरकृत प्रवेशिका ४५० पृष्ठ १॥) उन्नति का मार्ग
 सफलता के सात साधन १) शान्ति की श्रो

१॥) निम्

साहित्यिकः—

- १॥) तुलसी सूक्तिसुधा १) भ्रमरगीत सार
 १॥) गुलदस्तये बिहारी १) आत्मवेदना



